



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12—नवम्बर 18, 2016 (कार्तिक 21, 1938)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12—NOVEMBER 18, 2016 (KARTIKA 21, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV

[PART IV]

[गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं]

[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER

Controller of Publication

CHANGE OF NAME

I, hitherto known as Harpreet Singh son of Sh. Karnail Singh, employed as Deputy Controller of Accounts, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, residing at House No. 4824, Puncham Society, Sector 68, Mohali, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as Harprit K Singh.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Harpreet Singh

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Rajesh Sharda son of Shri Amrit Lal Sharda, residing at 151, IIIrd Floor, Gujrawala Town, Part-II, Delhi-110009, have changed my name and shall hereafter be known as RRAJESH SHARRDA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Rajesh Sharda

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Sucha Singh Hundal S/o Faqir, residing at Village-Dhada Hundal, P.O.-Khanpur Dhada, Teh.-Nakodar, Jalandhar-144040, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as Sucha Singh.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Sucha Singh Hundal

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Deepak Kumar S/o Mohan Lal Bassi, residing at N.C.-221, Kot Kishan Chand, Jalandhar City-

144004, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as Deepak Bassi.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Deepak Kumar
[Signature (in existing old name)]

I, Pardeep Singh son of Ransingh, residing at Village-Jeetgarh, P.O.-Roopgarh, Tehsil and Distt. Jind, Haryana-126102, have changed the name of my minor son Sourabh Singh aged 17 years and he shall hereafter be known as Sanjeev.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Pardeep Singh
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as Hitesh @ Hitesh Sharma, S/o Sh. Ram Parshad, residing at H.No.-284, 2nd Floor, G-30, Sec-3, Rohini, New Delhi-110085, have changed my name and shall hereafter be known as HITESH SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Hitesh @ Hitesh Sharma
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as V. Surya S/o Sh. Natarajan Venkataraman, R/o Flat No. 410, Employees CGHS, Plot No. 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075, have changed my name and shall hereafter be known as "SURYA VENKATARAMAN".

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

V. SURYA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Soniya Bisht W/o Sh. Ramesh Singh Ghugtyal, residing at 4/6, Peelay Quarter, Lohia Nagar, Ghaziabad, U.P.-201001, have changed my name and shall hereafter be known as Soniya Ghugtyal.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Soniya Bisht
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Gurjeet Singh Baweja S/o Shri Amarjit Singh, residing at A-2/69, Block A-2, Rajouri Garden, New Delhi-110026, have changed the name of my minor daughter

from Palak Baweja, aged about 16 years, and she shall hereafter be known as Palak Kaur Baweja.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Gurjeet Singh Baweja
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as "Avidesh kumar Alias Avishake Kumar" S/o Ram Swarth, residing at E.G-964, Mohalla Gobindh Garh-Jalandhar-Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as "Avidesh Kumar".

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Avidesh kumar Alias Avishake Kumar
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Sarvpriya S/o Sh. Satish Kumar, residing at A-1-B, Old DDA Flats, Paschim Puri, New Delhi-110063, have changed my name and shall hereafter be known as SAMEER SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Sarvpriya
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Ravinder Kumar Son of Ram Saran, employed as Doctor, residing at G-29/61, Sector-3, Rohini, Delhi-110085, have changed my name and shall hereafter be known as Ravinder Kumar Saran.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAVINDER KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Simran daughter of Ravi Kumar, residing at H. No. 13/2, Pushp Vihar, Sector-1, New Delhi-110017, have changed my name and shall hereafter be known as Simran Gupta.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Simran
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Heena Choudhary D/o Ratan Singh, residing at 51, Bahubali Enclave, Delhi-110092, have changed my name and shall hereafter be known as Nikitaa Singh.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Heena Choudhary
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Arun Yadav Son of Shri Omkar Singh, employed as Dy. Manager (Security) in State Bank of Mysore, residing at H. No. 64/138, Village-Tal Firoz Khan, Madhunagar, Tehsil-Sadar, Thana-Sadar, City-Agra, District-Agra, State-Uttar Pradesh, PIN-282001, have changed my name and shall hereafter be known as Arun Singh.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Arun Yadav
[Signature (in existing old name)]

I, Robinson son of Hari Narayan, employed as Assistant Manager in the Toshiba JSW Power System Private Limited, residing at 9th Floor, Building No. 10, Tower-B, DLF Cyber City, Phase-II, Gurgaon (Haryana)-122002, residence at T 77, Gali No. #3, Mangat Ram Marg, Johripur, Delhi-110094, have changed the name of my minor son Yahanns Aryan aged 4 years 8 months and he shall hereafter be known as Yohanns Robinson.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Robinson
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as KAMLA D/o Sh. SALTU RAM, R/o 4/32, Sangam Vihar, Jharoda Majara, Opp. Police Post Burari, Delhi-110084, have changed my name and shall hereafter be known as MAANAVI KOUSHAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAMLA
[Signature (in existing old name)]

I, Vipendra Singh son of Mahendra Singh, employed as SGT in Air Force, residing at SMQ-263, Air Force Station, Hindon, Ghaziabad, U.P.-201004, have changed the name of my minor son Vivek Singh Gred aged 13 years and he shall hereafter be known as Vivek Singh.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Vipendra Singh
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as Sharad Bala Khare Wife of Vimal Kumar, residing at 1068-P, Sec-3, Part-2nd, Huda Rewari, Haryana-123401, have changed my name and shall hereafter be known as Sharad Sinha.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHARAD BALA KHARE
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Ajit Pal alias Ajit Pal Singh Son of Late Sh. Jagmal Singh, residing at H. No. 1641, Sector-5, R. K. Puram, New Delhi-110022, residing at Permanent resident of Village & Post-Devta, Near Shyam Nagar Mandi, Tehsil-Sadar, Distt. Gautambudh Nagar, U.P.-203202, have changed my name and shall hereafter be known as Ajitpal Bhati.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AJIT PAL alias AJIT PAL SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Indresh alias Urmila Indresh Nagar wife of Ajitpal Bhati, residing at H.No. 1641, Sector-5, R.K. Puram, New Delhi-110022, Permanent address resident of village & Post-Devta, Near Shyam Nagar Mandi, Tehsil-Sadar, Distt. Gautambudh Nagar, U.P.-203202, have changed my name and shall hereafter be known as Indresh Bhati.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

INDRESH alias URMILA INDRESH NAGAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Sanjeev son of Naipal Singh, residing at H.No. 63, Gali No. 2, Rampur Kala, Chakia, Chandauli, U.P.-232103, have changed my name and shall hereafter be known as Sanjeev Patel.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Sanjeev
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Rinki Ujjainiya wife of Jayant Kumar, resident of 254/4B, Railway Officer's Enclave, Panchkuian Road, New Delhi-110001, have changed my name and shall hereafter be known as Anjali Kumar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Rinki Ujjainiya
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAKESH VIJAYAN S/o Sh. T. VIJAYAN, residing at 1052, 1st Floor, Sec 23A, Cartarpuri, Gurgaon, Haryana-122017, have changed my name and shall hereafter be known as RAKESSH VIJAYAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAKESH VIJAYAN
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ANJUM PARVEEN Wife of Altamash, a housewife, residing at 43-A, Gali No. 13, Molarband Extn., Badarpur, New Delhi-110044, have changed my name and shall hereafter be known as DIMPLe.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANJUM PARVEEN
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as UTPAL KOUL S/o TEJ KRISHNA KOUL, residing at A-2/90, Aya Nagar Colony, Phase-5, Delhi-110047, have changed my name and shall hereafter be known as UTPALL KOUL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

UTPAL KOUL
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Bhushan Lal/Bhushan Dutt son of Chunni Lal, residing at B-85, Street No. 11, Shashai Garden, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091, have changed my name and shall hereafter be known as Bhushan Lal Dutt.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Bhushan Lal/Bhushan Dutt
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Amit son of Prem Pal, residing at B-1/45, Aman Vihar, Suleman Nagar, Kirari, Delhi-110086, have changed my name and shall hereafter be known as Amit Kumar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Amit
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Beenu Chhabra wife of Shri Chaman Kumar, residing at H.No. 146-R, Model Town, Panipat, Haryana-132103, have changed my name and shall hereafter be known as Dimpy Chhabra.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Beenu Chhabra
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Gaurav @ Gaurav Sharma son of Ram Kumar Sharma, residing at H. No. 1/7052, Street No. 5, Shivaji Park, Shahdara, Delhi-110032, have changed my name and shall hereafter be known as Gaurav Sharma.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Gaurav @ Gaurav Sharma
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Anirudh Choudhary Son of Dr. Yoganand Shastri, employed as AGM Sales and Marketing in Sweta Estates Pvt. Ltd., 3rd Floor, Tower-D, Global Business Park, G.B. Park, DLF Phase 1, Sector 26, Gurgaon, Haryana-122001, residing at C-24, Geetanjali Enclave, New Delhi-110017, have changed my name and shall hereafter be known as Anirudh Shastri.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Anirudh Choudhary
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VARUN S/o Sh. Ramesh Kumar, residing at 1219/1, Rali Gali, Sonipat, (HR)-131001, have changed my name and shall hereafter be known as VARUN BHARDWAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VARUN
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MINA AICH W/o Shri UJJAL KUMAR DEY, R/o RZF-1042-B, Guru Nanak Marg, Raj Nagar Part-2, Palam Colony, Bagdola, South West Delhi, New Delhi-110077, have changed my name and shall hereafter be known as SUBHRA DEY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MINA AICH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as GEETA GUPTA Wife of Sh. Desh Bandhu Gupta, residing at A-173, Suraj Mal Vihar, Delhi-110092, have changed my name and shall hereafter be known as SWATI GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GEETA GUPTA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Neena Devi alias Neena Rani W/o Parveen Singh, residing at V.P.O.-Purika, Tehsil-Mukerian, Distt.-Hoshiarpur, Punjab-144251, have changed my name and shall hereafter be known as Neena Devi.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Neena Devi alias Neena Rani
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Naveen Son of Late Sh. Mohan Lal, employed as Medical Attendant "C" in the Min. of Def., DRDO, Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences, Brig SK Mazumdar Road, Delhi-110054, residing at H.No.-423, Kh. No.-39/19/02, Gali No.-6, B-Block, Amrit Vihar, Burari, Delhi-110084, have changed my name and shall hereafter be known as NAVEEN ARYA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Naveen
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Anju wife of Sh. Naveen Arya, residing at H.No.-423, Kh. No.-39/19/02, Gali No.-6, B-Block, Amrit Vihar, Burari, Delhi-110084, have changed my name and shall hereafter be known as Anju Arya.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Anju
[Signature (in existing old name)]

I, Naveen Arya Son of Late Sh. Mohan Lal, employed as Medical Attendant "C" in the Office of Min. of Def., DRDO, Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences, Brig SK Mazumdar Road, Delhi-110054, residing at H.No.-423, Kh. No.-39/19/02, Gali No.-6, B-Block, Amrit Vihar, Burari, Delhi-110084, have changed the name of my minor son Jayesh aged 15 years and he shall hereafter be known as Jayesh Arya.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Naveen Arya
[Signature of Guardian]

I, Naveen Arya Son of Late Sh. Mohan Lal, employed as Medical Attendant "C" in the Office of Min. of Def., DRDO, Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences, Brig SK Mazumdar Road, Delhi-110054, residing at H.No.-423, Kh. No.-39/19/02, Gali No.-6, B-Block, Amrit Vihar, Burari, Delhi-110084, have changed the name of my minor son Samay aged 12 year's and he shall hereafter be known as Suyash Arya.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Naveen Arya
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as Kailesh Jha S/o Yogeshwar Jha, residing at 72, Nehru Camp, Haiderpur, Delhi-110088, have changed my name and shall hereafter be known as Ravinder Nath Jha.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Kailesh Jha
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Kashish son of Lal Chand Sethi, residing at C4-E-8/17, Janak Puri, Delhi-110058, have changed my name and shall hereafter be known as Kashish Sethi.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Kashish
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Gajender Bahdur @ Gajender Bahadur son of Madhan Chand, residing at RZ-14/223, Gali No. 3, West Sagar Pur, Delhi-110046, have changed my name and shall hereafter be known as Gajender Chand.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Gajender Bahdur @ Gajender Bahadur
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Rajeev Kumar S/o Sh. Ashok Kumar Barnwal, R/o 1073, Valencia Mahagun Moderne Sector-78, Noida, U.P., have changed my name and shall hereafter be known as Rajeev Barnwal.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Rajeev Kumar
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Kumar Sonu son of Chandeshwar Tiwary, residing at H.No. 38, Village Chakniyammat, Purwa, Hajipur, Vaishali, Bihar-844101, have changed my name and shall hereafter be known as Sonu Tiwary.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Kumar Sonu
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as JAGDEESH PRASAD son of Late Sh. BALBIR SINGH, employed as Head Constable in Delhi Police Traffic Head Quarter, Todapur, New Delhi, residing at VPO-Dhikoli, District-Baghpat, U.P.-250615, have changed my name and shall hereafter be known as JAGDISH DHAKA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JAGDEESH PRASAD
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Arvindo Saurabh S/o Sh. Naresh Chandra, R/o Sec-M-934, Aashiana, Kanpur Road, Lucknow-226012, have changed my name and shall hereafter be known as Saurabh Chandra.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Arvindo Saurabh
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MANISHA ARORA D/o Mr SANJEEV KUMAR, R/o RP-101, Pitampura Maurya Enclave, Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as JASMYRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Manisha Arora
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Gagandeep wife of Amanpreet Singh Sahni, residing at 2157/B2, 2nd Floor, Guru Arjun Nagar, Shadipur, Patel Nagar, New Delhi-110008, have changed my name and shall hereafter be known as Gagandeep Kaur Sahni.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Gagandeep
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Pooja Chauhan Daughter of Mr. Vishwanath Menon of employed as Primary Teacher (PRT) in Shiv Nadar School, Noida, residing at 153-F Pocket 1, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091, have changed my name and shall hereafter be known as Pooja Menon.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Pooja Chauhan
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Ramesh Chander son of Shri Prem Chand Bidhan, employed as Deputy Commissioner, Jhajjar (Haryana), residing at House No. 117, Sector-14, Rohtak (Haryana), have changed my name and shall hereafter be known as Ramesh Chander Bidhan.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Ramesh Chander
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Hemlata D/o Sh. Amar Singh W/o Mandeep Singh, employed as "Technical Officer (Procurement)" in Ministry of Health & Family Welfare, National AIDS Control Organization (NACO) R/o Permanent Address: H.No. 1502, Laxmibai Nagar, Type-II, New Delhi-110023, have changed my name and shall hereafter be known as SIMRANJEET KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HEMLATA
[Signature (in existing old name)]

I, Harminster Singh Bedi Son of Mohinder Singh Bedi, residing at D-166/38, D Block, Sector-50, Noida-201301 (UP), have changed the name of my minor Son's Praneet Singh Bedi aged 17 years and he shall hereafter be known as Praneet Bedi.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HARMINDER SINGH BEDI
[Signature of Guardian]

I, hereto known as SHELENDRA KUMAR SINGH son of MAHESH CHANDRA, residing at B-22/12, Kendriya Vihar, Sector-11, Kharghar, Navi Mumbai-410210, have changed my name and shall hereafter be known as SHAILENDRA KUMAR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHELENDRA KUMAR SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as CHARCHIL KHUSHAL KAMBALE son of Shri KHUSHAL HIRAMAN KAMBLE, employed as DBW/SK in the Ordnance Factory Bhandara, residing at the Qtr. No.-123/3, Type-I in Ordnance Factory Estate Jawaharnagar, Bhandara, have changed my name and shall hereafter be known as CHARCHIL KHUSHAL KAMBLE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHARCHIL KHUSHAL KAMBALE
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as LAXMI PRIYA SWAIN wife of KHAGESWAR JENA, a housewife, residing at Flat No. 48,

Janta Flats, Group-1, Hastal, PO: D K Mohan Garden, Uttam Nagar, West Delhi, Delhi-110059, have changed my name and shall hereafter be known as LAXMI PRIYA JENA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LAXMI PRIYA SWAIN
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Dalip Singh Son of Trilochan Singh, employed as Wing Commander in the Indian Air Force, residing at House No. 13, Vijay Nagar, Jalandhar City, Punjab, Pin-144001, have changed my name and shall hereafter be known as Dalip Singh Gill.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Dalip Singh
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BALHAR SINGH son of JOGINDER SINGH, residing at Village Birowal, PO: Jadla, Tehsil Nawanshahr, District S.B.S. Nagar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as BALIHAR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BALHAR SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Rakesh Kumar S/o Shri Amin Chand, R/o 206, First Floor, Vasundhra Pocket, Ashok Enclave-3, Sector-35, Faridabad-121003, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as Rakesh Chopra.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Rakesh Kumar
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MAHESH PAL son of CHAMAN LAL, residing at H.No. 54, Guru Amar Dass Nagar Ext., Backside Verka Milk Plant, Jalandhar, Punjab, Pin-144008, India, have changed my name and shall hereafter be known as MAHESH PAUL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MAHESH PAL
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Nishu S/o Sh. Chander Prakash, R/o 35/377, Trilokpuri, East Delhi-110091, have changed my name and shall hereafter be known as Nishu Rathore.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Nishu
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Vishal Arora S/o Suresh Kumar Munjal, R/o H. No. 26, Second Floor, A.G.C.R. Enclave, Delhi-110092, have changed my name and shall hereafter be known as Vishal Munjal.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Vishal Arora
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as KULDEEP SINGH son of TEJA SINGH, residing at Village Dodey, PO: Mustfapur, District Jalandhar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as SURINDER SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Thumb impresion of KULDEEP SINGH

I, hitherto known as TAMADA SUSHMITA RAO Wife of Shri DEVESH VERMA, employed as Senior Engineer in the Bharat Heavy Electricals Limited, residing at J-623, Gaur Grandeur Apartment, Sector-119, Noida, U.P., have changed my name and shall hereafter be known as SUSHMITA VERMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TAMADA SUSHMITA RAO
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SURINDER KAUR wife of MAHESH PAUL, residing at H.No. 54, Guru Amar Dass Nagar Ext., Backside Verka Milk Plant, Jalandhar, Punjab, Pin-144008, India, have changed my name and shall hereafter be known as SIMRIT KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURINDER KAUR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as UPASNA DHIR daughter of Sh. Inderjit Dhir and wife of Sh. Hukminder Lal Sahi, a Housewife, residing at H.No. 229/34, Mata Rani Mohalla, Khanna-141401, Distt. Ludhiana, Punjab, India, have changed my name and shall hereafter be known as UPASNA SAHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

UPASNA DHIR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as K.SRINIVASULU son of Late THIRUPAIAH, employed as Supervisor, field tech support in the HP PPS India Operations Private Limited, residing at No. 404, 4th Floor, Vaastu Lavender Apartments, Phase-1, Mylasandra, BEML 7th stage, Bangalore-560059, have changed my name and shall hereafter be known as SRINIVASA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

K.SRINIVASULU
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUKHWINDER KAUR wife of MALKIT SINGH, residing at Village Mandhiani, PO: Mohar, Tehsil Balachaur, District SBS Nagar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as BALVIR KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUKHWINDER KAUR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as JASJIT SINGH son of SHAMINDER SINGH, residing at Village Mandhiani, PO: Mohar, Tehsil Balachaur, District SBS Nagar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as MALKIT SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JASJIT SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NIVETHA JAWAHAR Wife of P.VENKATESWARAN, residing at 3/103, Mela Street, Pulivalam, Thiruvavur, have changed my name and shall hereafter be known as NIVETHA VENKATESWARAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NIVETHA JAWAHAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAJINDER SINGH son of AJIT SINGH, employed as Commanding Officer in the 24 Wireless Experimental Unit, PIN-904824, Care of 99 Army Post Office, residing at MAP-II, P 3/9, Batra Bihar, Bengdubi, Siliguri

(West Bengal), have changed my name and shall hereafter be known as RAJINDER SINGH BAINS.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJINDER SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VIJAY MALU S/o KAMAL NAYAN MALU, R/O 802, Royale Retreat-2, Near Surajkund Road, Charmwood Village, Faridabad, Haryana-121009, have changed my name and shall hereafter be known as VEEJAY MALU.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIJAY MALU
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Anuj Sikri Son of Sh. Rajinder Sikri, employed as Corporate Travel Head, residing at Sai Dham Apartment, Plot No. 305, F-1, Gyan Khand-1, Indrapuram, Ghaziabad, U.P., have changed my name and shall hereafter be known as Anojj Sikri.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Anuj Sikri
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Aakanksha wife of Sh. Ashish Kumar Rai, presently Home Maker, residing at Flat No. 902, Coral Tower, Arihant Ambience, Crossing Republic, Ghaziabad, U.P.-201016, have changed my name and shall hereafter be known as Aakanksha Rai.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Aakanksha
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ONKAR SINGH RADIUM S/o Sh. Bashamber Dass retired as officer from Punjab Govt., residing at # 25, Street No. 1, Shalimar Nagar, Hoshiarpur, Punjab-146001, have changed my name and shall hereafter be known as ONKAR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ONKAR SINGH RADIUM
[Signature (in existing old name)]

I, Rohtas Singh S/o Sh. Ram Singh, R/o Flat No. 90, MIG Flat, Sector-14-B, Kautalaya Apartment, Dwarka, New Delhi-

110078, have changed the name of my minor son from Harsh Vardhan Singh age about 16 years and he shall hereafter be known as Harsh Vardhan.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Rohtas Singh
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as Narendra son of Panjabrao Ramteke, employed as Machinist High skilled-I in the Ordnance Factory, Ambazari, Nagpur, Maharashtra, at R/o 15, Laghuvetan Society, Near Kachore Lawn, Beltarodi Road, Manish Nagar, Nagpur-440015, have changed my name and shall hereafter be known as Narendra Panjabrao Mohod.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Narendra
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PARAMJIT KAUR wife of AJAIB SINGH, residing at Village Sarupwal, P/o Begowal, District Kapurthala, T.H.E. Bhulath, Punjab-144621, have changed my name and shall hereafter be known as PARAMJEET KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PARAMJIT KAUR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ASHOK F. MADIWAL S/o Fakira Evolkar, employed as SR Goods Guard, E.M. No. 9078, P.F. No. 07493150 at South Western Railway, Hubli division, Karnataka, R/o H.No. Vol II/36, Goa, have changed my name and shall hereafter be known as ASHOK FAKIRA EVOLKAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ASHOK F. MADIWAL
[Signature (in existing old name)]

I, PRABHAT KUMAR OMKER son of SURESH CHANDRA OMKER, employed as Assistant Consultant in the Tata Consultancy Services Private Limited, residing at House No. 49, Susheel Nagar, Near Shiva P.C.O. Orai, District Jalaun (U.P.) 285001, have changed the name of my minor daughter ANURADHA aged 2 years and she shall hereafter be known as MIHIKA OMKER.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRABHAT KUMAR OMKER
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as K. Shanmugapriya Wife of S. Sirajudeen, employed as Skilled Support Staff, Mandapam Regional Centre of Central Marine Fisheries Research Institute, Mandapam Camp, residing at 1/9B, East Street, Maraikkayar Pattinam, Marine Fisheries Post, Mandapam Camp, Ramanathapuram (Dist), Tamilnadu (State)-623520, have changed my name and shall hereafter be known as S. Sabiya Begum.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

K. Shanmugapriya
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Shambhu Datt son of Late Shri Bala Datt, employed as Section Officer with Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, residing at 17/C/304, Vasundhara, Distt. Ghaziabad (UP)-201012, have changed my name and shall hereafter be known as Shambhu Datt Sati.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Shambhu Datt
[Signature (in existing old name)]

CHANGE OF RELIGION

I, K. Shanmugapriya Wife of Shri S. Sirajudeen, employed as Skilled Support Staff in the Mandapam Regional Centre of Central Marine Fisheries Research Institute, Mandapam Camp residing at 1/9B, East Street, Maraikkayar Pattinam, Marine Fisheries Post, Mandapam Camp, Ramanathapuram (Dist), Tamilnadu (State)-623520 do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced Islamic and renounced Hinduism with effect from 01.05.2014.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

K. Shanmugapriya
[Signature]

PUBLIC NOTICE

It is general information that I K. DEVANJAN REDDY Son of Sh. Nagalinga Reddy residing at Vill-Neelam Palli, Post-Jantalur, Mandal- B.K. Samudrum, Dist- Anantapur, State- Andhra Pradesh, Pin Code-515701 declare that name of mine has been wrongly written as K.Devanjineyulu in my service record and educational documents. The actual name of mine is K. DEVANJAN REDDY respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

K. DEVANJAN REDDY
[Signature]

It is for general information that I Akash Sharma S/o Sh. Prakash Chandra residing at 17-A/708, Sector-17, Vasundhara, Ghaziabad, U.P. declare that name of my father has been wrongly written as Prakash Chandra Sharma in my School educational documents. The actual name of my father is Prakash Chandra which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Akash Sharma
[Signature]

It is for general information that I, Beli Mishra W/o Sh. Garib Nath Rai R/o 710, Shiv Durga Vihar, Lakkarpur Surajkund, Faridabad, Haryana do hereby declare that name of my Husband has been wrongly written as Ajeet Pandey in my Official record. The actual name of my Husband is Garib Nath Rai respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I complied with other legal requirements in this connection.

Beli Mishra
[Signature]

It is for general information that I Baljeet Kaur W/O Kewal Singh residing at 3701/01, Mohalla Basant Vihar, Adampur Doaba, Jalandhar-144102 Punjab declare that name of Mine has been wrongly written as Bimaljit Kaur in my Passport. The actual name of mine is Baljeet Kaur respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Baljeet Kaur
[Signature]

It is for general information that I RAJIV KUMAR GUPTA S/o ROOP KUMAR GUPTA R/o A-577-578, G.D. COLONY, MAYUR VIHAR, PH-III, DELHI-110096 inform that my name is wrongly written as RAJEEV GUPTA in my minor daughter TANISHA GUPTA, in school record. My correct name is RAJIV KUMAR GUPTA which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJIV KUMAR GUPTA
[Signature]

It is for general information that I Malkiat Singh S/O Hazara Singh residing at VPO Bholath, Kapurthala, Distt. Kapurthala, Punjab-144601, India, declare that name of mine has been wrongly written as Malkit Singh Alias Malkiat Singh in my son Sukhjinder Singh's passport. The actual name of mine is Malkiat Singh, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Malkiat Singh
[Signature]

It is for general information that I, Sandeep Kumar S/o Parmatma Ram Manjhi R/o A-268, A-Block, Gali No. 8, Mahavir Enclave, Part-II, Delhi declare that the name of my father has been wrongly written as Parmatma Ram in my Educational Certificates. Actual name of my father is Parmatma Ram Manjhi, which may be amended accordingly.

It is certified that I complied with other legal requirements in this connection.

Sandeep Kumar
[Signature]

It is for general information that I Ajit Singh S/O Mansha Singh residing at VPO Maksud Pur, Teh-Bholath, Distt-Kapurthala-144619, Punjab declare that name of Mine has been wrongly written as Jit Singh in my Pass Port. The actual name of mine is Ajit Singh respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Ajit Singh
[Signature]

It is for general information that I SACHIN SHEOBHAGWAN AGARWAL son of SHEOBHAGWAN RAMKUMAR AGARWAL residing at B/804, M.D. PARK, SARELAWADI, GHOD DOD ROAD, SURAT -395007 declare that name wrongly written as CHIMPOO AGRAWAL in my POST OFFICE PUBLIC PROVIDENT FUND (PPF) ACCOUNT NO. 14236 and in the other documents. The actual name of mine is SACHIN SHEOBHAGWAN AGARWAL which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SACHIN SHEOBHAGWAN AGARWAL
[Signature]

It is for general information that I Laxmi w/o Shital Prasad residing at 272, ESI Colony, Basai Dara Pur, New Delhi-110015 declare that name of mine has been wrongly written as Sheela in my minor daughter's Simran aged 14 years School Record. The actual name of mine is Laxmi. which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Laxmi
[Signature]

It is for general information that I Navraj Singh Sandle Son of Harmesh Singh Sandle residing at Plot-6, Shikshik Vihar, Chander Vihar, Nilothi Extn, Nangloi, Delhi - 110041 declare that name of mine has been wrongly written as Navrat Singh Sandle in my Xth Marksheet and Certificate. The actual name of mine is Navraj Singh Sandle respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NAVRAJ SINGH SANDLE
[Signature]

It is for general information that I Naresh Kumar S/o Suraj Mal residing at 45, Ugmana Pana, V.P.O-Rawta, New Delhi-110073 declare that name of mine has been wrongly written as Naresh Phalswal in my minor son's Nikhil aged 17years 10th Mark Sheet and Certificate. The actual name of mine is Naresh Kumar. which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Naresh Kumar
[Signature]

It is for general information that I Akil S/o Sh. Aspak residing at 65, Gali No.03, Kureni, Narela, Delhi-110040 declare that name of mine and my father has been wrongly written as Mohd. AAKil and Mohd. Ashfak in my 9th Class educational documents and School Living Certificate. The actual name of mine and my father are Akil and Aspak respectively. Which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Akil
[Signature]

It is for general information that I Savriya s/o Ram Singh residing at D-4/180 Sultan Puri Delhi-110086 declare that name of my father has been wrongly written as Ram Sahai in my School Certificate. The actual name of my father is Ram Singh. which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Savriya
[Signature]

It is for general information that I Nandi Devi W/o Sh. Chandra Singh Rawat residing at E-105, Nanhey Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059 declare that name of my husband and my minor son's Virender Singh Rawat aged 17years has been wrongly written as Chander Singh and Virender Singh

in his 10th Class Mark Sheet and Certificate. The actual name of my husband and my minor son's are Chandra Singh Rawat and Virender Singh Rawat respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Nandi Devi
[Signature]

It is for general information that I Rahul Chandel S/O Gajraj residing at H.No.17, Rajput Patti, Ujwa Village, Delhi-110073 declare that name of Mine and my father has been wrongly written as Rahul and Gajraj Singh in my Driving License. The actual name of mine is Rahul Chandel and Gajraj respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Rahul Chandel
[Signature]

It is for general information that I Surender S/o Karan Singh residing at C-1/96, Sultan Puri, Delhi-110086 declare that name of mine has been wrongly written as Sulender in my 10th , 12th , Delhi Police I-Card, Axis Bank Account and other documents. The actual name of mine is Surender which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Surender
[Signature]

It is for general information that I Dharmender S/o Puran Chand residing at C-1, 117 CPWD Multistoried Flates, Dev Nagar, New Delhi-110005 declare that name of mine has been wrongly written as Dharmender Nagar in my minor son Ashish Nagar aged 14years School documents. The actual name of mine is Dharmender which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Dharmender
[Signature]

It is for general information that I Shubham Kumar Arya S/o Bheem Ram residing at L-IIInd, H.No.945, Gali No.22, Shani Bazar, Sangam Vihar, New Delhi-110062 declare that name of mine has been wrongly written as Shubham Kumar in my 10th and 12th Class Mark Sheet and Certificate. The actual name of mine is Shubham Kumar Arya which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Shubham Kumar Arya
[Signature]

It is for general information that I Sushant Kumar Singh S/o Navin Kumar Singh residing at WZ-123B, S/F.No.202, St. No.3, Sadhnagar, Palam-Colony, Delhi-110045 declare that name of my father has been wrongly written as Naveen Kumar Singh in my 10th and 12th Class Mark Sheet and Certificate. The actual name of my father is Navin Kumar Singh which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Sushant Kumar Singh
[Signature]

It is for general information that I TANUJEET SINGH KALRA S/o PARAMJIT SINGH KALRA residing at 57-D, Ayodhya Enclave Sector-13, Rohini, Delhi-110085 declare that name of my father has been wrongly written as P. S. KALRA in my Driving License. The actual name of my father is PARAMJIT SINGH KALRA respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TANUJEET SINGH KALRA
[Signature]

It is for general information that I Priya Yadav D/o Sh. Vinod Kumar residing at H.No. RZ-22, Sainik Enclave, Part-III, Jharoda Kalan, New Delhi-110072 declare that name of mine and my mother's has been wrongly written as Priya Yadava and Anita Yadava in my educational and other documents. The actual name of mine and my mother are Priya Yadav and Anita Yadav respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Priya Yadav
[Signature]

It is for general information that I Sunder Lal S/o Sh. Shankar Lal residing at 55/19, Ashok Nagar, New Delhi-110018 declare that name of mine has been wrongly written as Sunder Attania in my Pen Card. The actual name of mine is Sunder Lal which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Sunder Lal
[Signature]

It is for general information that I, Shiv Kumar S/o Sh. Baljeet Singh residing at BF-67, SFS Flats, East Shalimar Bagh, North West, Delhi-110088 declare that the name of mine and my wife has been wrongly written as Shiv Kumar Singh and Sunita Singh respectively in 10th class Certificate and Marksheet and Caste Certificate of my minor son Manhar Singh aged about 16 years. The actual name of mine and my wife is Shiv Kumar and Sunita respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Shiv Kumar
[Signature]

It is for general information that I PRINCE GUPTA S/O RAMPAL GUPTA residing K-3/460, GALI No.-19, RATIA MARG, SANGAM VIHAR, NEW DELHI-110062 declare that name of mine has been wrongly written as NITIN KUMAR GUPTA in my LIC POLICY No.-113009145. The actual name of mine is PRINCE GUPTA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRINCE GUPTA
[Signature]

It is for general information that I Gudiya D/O Prem Pal Singh residing at H.No.-267, Gali No.-14, Phase-6 Shiv Vihar, Delhi-110094 declare that name of mine has been wrongly written as Gayatri in my IBDI Promissory Bond No.-FDDB0885171. The actual name of mine is Gudiya respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Gudiya
[Signature]

It is for general information that I Pawan Kumar Son of Sagar Sharma Residing at 109, East Guru Angad, Nagar, Delhi-110092 declare that name of mine and my minor Daughter's has been wrongly written as Pawan Sharma and Smriti in my minor Daughters aged 14 years School documents. The actual name of mine and my minor Daughter's are Pawan Kumar and Smriti Sharma respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PAWAN KUMAR
[Signature]

It is for general information that I Surinder Ghuman W/o Sh. Lt Col G S Ghuman residing at A-603, Kings Garden, Hansmukhi Apartment's, Hoshiarpur Highway,

Jalandhar, Punjab-144005 declare that name of mine has been wrongly written as Surinder Pal Kaur in my P.P.O. No.M/002160/1987 and Corrigendum P.P.O. No.M/CORR/6th CPC/013275/2014. The actual name of mine is Surinder Ghumman which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Surinder Ghumman
[Signature]

It is for general information that I Ashok Sahay S/O Shri Atar Singh residing at H.No.-89, Second Floor, Sainik Vihar, Pitampura, Delhi-110034 declare that name of mine has changed from Ashok Kumar Singh to Ashok Sahay for all future purposes.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Ashok Sahay
[Signature]

It is for general information that I, Kundan Ahirwar S/o Sh. Kalu Ahirwar R/o Kanjara, Patera, Damoh, Madhya Pradesh-470772 do hereby declare that name of mine and my father has been wrongly written as Kundan and Kallu Agarwal in my 10th and 12th Class Certificates. The actual name of mine and my father is Kundan Ahirwar and Kalu Ahirwar, which may be amended accordingly.

It is certified that I complied with other legal requirements in this connection.

Kundan Ahirwar
[Signature]

It is for general information that I Nikhil Suryavansi S/o Shri Hari Om Verma residing at 260(WZ-78A) Raja Garden, New Delhi-110015 declare that name of mine has been wrongly written as Nikhil Suryavanshi in my Driving License. The actual name of mine is Nikhil Suryavansi which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Nikhil Suryavansi
[Signature]

It is for general information that I Deepanshu S/o Sh. Naresh Pant residing at H-10, 1st Floor, Gali No.06, East Guru Angad Nagar, Delhi-110092 declare that name of my father has been wrongly written as Naresh Kumar in my 10th, 12th and B.A. Programme. The actual name of my father is Naresh Pant which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Deepanshu
[Signature]

It is for general information that I Rajesh Kumar S/o Har Prasad residing at H.No.107 Jagdamba Colony, Village Johri Pur, Delhi-110094 declare that name of my father has been wrongly written as Har Pal in my Driving License. The actual name of my father is Har Prasad which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Rajesh Kumar
[Signature]

It is for general information that I Neelam W/o Satbir Singh residing at E-223, JJ Colony, Wazirpur, Delhi-110052 declare that name of mine has been wrongly written as Sarika in my minor son's Abhishek aged 12years School record. The actual name of mine is Neelam which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Neelam
[Signature]

It is for general information that I Neha Rai D/o Sh. Girvar Singh Rai residing at 70 Colony Pura, Ghasmandi, Gwalior, M.P.-474003 declare that name of my father and my mother has been wrongly written as Girivar Singh Rai and Mithilesh Rai in my 10th, 12th and University and other documents. The actual name of my father and my mother are Girvar Singh Rai and Mithlesh Rai respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Neha Rai
[Signature]

It is for general information that I Veera Mani S/o Kanda Swami residing at 16/471, Kalyan Puri, Delhi-110091 declare that name of my wife has been wrongly written as Thamwani in my minor daughter's V Priya aged 17years 10th Class Mark Sheet and Certificate. The actual name of my wife is Thamarai which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Veera Mani
[Signature]

It is for general information that I Devender Kumar S/o Ranjeet Singh residing at A-54/8, Dhangar Niwas, Shivaji Road, North Ghonda, Delhi-110053 declare that name of mine has been wrongly written as Davender Kumar in my 10th Class Certificate. The actual name of mine is Devender Kumar which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Devender Kumar
[Signature]

it is for general information that I, Maninder Singh Son of Sohan Lal R/O at V.P.O. Pajjodeota District Hoshiarpur ,PUNJAB, INDIA, declare that name of Mine has been wrongly written as Manider Kumar in my 10th class certificate. The actual name of mine is Maninder Singh respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Maninder Singh
[Signature]

It is for general information that I ASHOK SAXENA S/O BHAGWAN DASS residing at C-6, DEFENCE ENCLAVE, PART-1, MOHAN GARDEN, NEW DELHI-110059 declare that name of mine has been wrongly written as ASHOK KUMAR GUPTA in my minor daughter PAYAL aged 17 years school documents. The actual name of mine is ASHOK SAXENA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ASHOK SAXENA
[Signature]

It is for general information that I Rajesh Kumar S/O Shri Jagmal Singh residing at Berak No.-3, PS Dariya Ganj, Delhi declare that name of my wife has been wrongly written as Manisha in my Service Book. The actual name of my wife is Madhu Bala respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Rajesh Kumar
[Signature]

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

मुंबई 400 051

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रस्तावित प्रारूप संशोधन, जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, सामान्य धारा अधिनियम, 1897 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुपालन में आलोचना के लिए प्रकाशित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसकी प्रस्तावित दस्तावेजों पर कोई भी टिप्पणी है, वह इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर एक्सचेंज प्लाजा, दूसरी मंजिल, 'बी-2' विंग, प्लॉट सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 पर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से उसे भेज सकता/सकती है। ऊपर्युक्त तिथि के बाद प्राप्त टिप्पणियों पर, जब ऊपर्युक्तप्रारूप दस्तावेजों को विचार के लिए लिया जाएगा, विचार नहीं किया जाएगा।

- I. कंपनी अधिनियम, 2013 के आलोक में धारा संख्या, अनुसूची संख्या या कंपनी अधिनियम, 1956 के संदर्भ में प्रस्तावित परिवर्तन।

कंपनी अधिनियम में परिवर्तन के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 में संबंधित धाराओं का उल्लेख करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराओं के प्रति निम्नलिखित संदर्भ, या कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के प्रति संदर्भ परिवर्तित किए जाने हेतु प्रस्तावित है:

क्र.सं.	अनुच्छेद संख्या	कंपनी अधिनियम, 1956 का संदर्भ	कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') का संदर्भ
1.	विवरण	कंपनी अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची में तालिका क	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 1 में चिह्नित तालिका च
2.	अनुच्छेद 1(i)	धारा 150	धारा 88
3.	अनुच्छेद 2(डी)	कंपनी अधिनियम 1956	"अधिनियम"
4.	अनुच्छेद 4	धारा 150, 151 और 152	धारा 88
5.	अनुच्छेद 5	धारा 159 और 161	".....अधिनियम के अधीन"
6.	अनुच्छेद 7	धारा 69, 70 और 75	धारा 39
7.	अनुच्छेद 15	धारा 77	धारा 67
8.	अनुच्छेद 34	धारा 205-ए	".....अधिनियम के विषयाधीन"
9.	अनुच्छेद 45	धारा 108 (1-ए)	धारा 56
10.	अनुच्छेद 47	धारा 108 की उप-धारा (1), (1-ए) और (1-बी)	धारा 56
11.	अनुच्छेद 68	धारा 79	धारा 53
12.	अनुच्छेद 68	धारा 81	धारा 62
13.	अनुच्छेद 73	धारा 58ए 292 293	".....अधिनियम के प्रावधान"
14.	अनुच्छेद 79	धारा 143	".....अधिनियम के प्रावधान"
15.	अनुच्छेद 105	धारा 187	धारा 113
16.	अनुच्छेद 112	अनुसूची नौ	धारा 105
17.	अनुच्छेद 152	धारा 193	धारा 118
18.	अनुच्छेद 157(19)	धारा 293	धारा 181
19.	अनुच्छेद 157(23)	धारा 292 और 293	".....अधिनियम के प्रावधान"
20.	अनुच्छेद 157(24)	धारा 292 और 293	".....अधिनियम के प्रावधान"
21.	अनुच्छेद 166	धारा 205	धारा 123
22.	अनुच्छेद 169	धारा 205	धारा 123
23.	अनुच्छेद 174	धारा 205ए	".....अधिनियम के विषयाधीन"

II. मौजूदा अनुच्छेदों में संयोजन या विलोपन की वजह से परिवर्तन।

i. अनुच्छेद 1 (ए) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

‘अधिनियम’ या ‘उक्त अधिनियम’ से आशय कंपनी अधिनियम, 1956 से है और इसमें प्रवृत्त समय के लिए इसके अधीन बनाए गए सभी नियम, स्पष्टीकरण, परिपत्र, अधिसूचनाएं और इसका प्रत्येक सांविधिक संशोधन या प्रतिस्थापन, और उस हद तक कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधान शामिल होंगे कि इस प्रकार के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित या अनधिसूचित, जैसा भी स्थिति हो, नहीं किए गए हैं

ii. अनुच्छेद 6 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

कंपनी ऐसी राशि के भुगतान पर जैसाकि इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है किसी भी सदस्य, ऋणपत्र-धारक या अन्य व्यक्ति को अनुरोध पर इस अधिनियम के अंतर्गत रखे जाने हेतु अपेक्षित सदस्यों के रजिस्टर, सदस्यों के सूचकांक, ऋणपत्र धारकों के रजिस्टर और सूचकांक या उसके किसी भाग की प्रतिलिपि भेजेगी। जिस दिन कंपनी द्वारा आवश्यकता प्राप्त की जाती है, के बाद अगले दिन को शुरू होने वाले दस दिनों, गैर काम वाले दिनों को छोड़कर सात दिनों की अवधि या ऐसे अन्य समय के भीतर प्रतिलिपि, भेजी जाएगी जैसाकि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है।

iii. अनुच्छेद 8 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

इस अधिनियम के प्रावधानों और इन प्रस्तुतियों के अध्यक्षीन प्रवृत्त समय के लिए कंपनी की पूंजी में शेयर (कंपनी की किसी भी आवर्धित पूंजी के हिस्से का गठन करने वाले किन्हीं भी शेयरों सहित) निदेशकों के नियंत्रण के अधीन होंगे, जो ऐसे समय के दौरान या ऐसे विचारण के लिए जैसाकि निदेशक उचित समझें या तो सम मूल्य या प्रीमियम पर किन्हीं भी शेयरों को मांगने के लिए किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को विकल्प या अधिकार देने के लिए आम बैठक में मंजूरी के साथ ऐसे अनुपात में और ऐसे नियमों और शर्तों पर और या तो प्रीमियम पर या सममूल्य पर या (इस अधिनियम की धारा 79-53 के प्रावधानों के अनुपालन के अध्यक्षीन) छूट पर या ऐसे समय पर जैसाकि वे समय-समय पर उचित और उपयुक्त समझें ऐसे व्यक्तियों के लिए इसका या इनमें से किसी का आवंटन या अन्यथा निपटारा कर सकते हैं, बेची और हस्तांतरित की गई किसी भी संपत्ति के या कंपनी के व्यापार के संचालन में कंपनी को प्रदान की गई किन्हीं सेवाओं के लिए पूर्ण या अंश में भुगतान पर कंपनी की पूंजी में से शेयर आबंटित कर सकते हैं और कोई भी शेयर, जिसे इस प्रकार आबंटित किया जा सकता है, पूरी तरह से चुकता शेयरों के रूप में जारी किया जा सकता है और यदि इस प्रकार जारी किया जाता है, तो पूरी तरह से चुकता शेयर समझा जाएगा।

बशर्ते शेयर मांगने का विकल्प या अधिकार, सिवाय आम बैठक में कंपनी की मंजूरी से, किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।

iv. अनुच्छेद 18 (1) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

कंपनी, कंपनी के किसी भी शेयर, ऋणपत्र या ऋणपत्र स्टॉक या कंपनी की कोई भी अन्य प्रतिभूति लेने के लिए या लेने के लिए सहमत होने के लिए (चाहे पूर्णतया या सशर्त) या कंपनी के किसी भी शेयर, ऋणपत्र या ऋणपत्र स्टॉक या कंपनी की कोई भी अन्य प्रतिभूति खरीदने के लिए या खरीदने के लिए सहमत होने के लिए (चाहे पूर्णतया या सशर्त) किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कमीशन का भुगतान कर सकती है लेकिन इतना है कि यदि शेयरों के संबंध में कमीशन का भुगतान मूल्य संबंधित निर्गमन या लाभ या दोनों की आय से किया जाएगा या देय होंगे, तो सांविधिक शर्तों और आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन किया जाएगा और कमीशन की राशि या दर इस अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं होगी। कमीशन का नकदी में या कंपनी के शेयर, ऋणपत्र या ऋणपत्र स्टॉक में भुगतान या संतुष्ट किया जा सकता है।

v. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 19 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

समस्त प्रतिभूतियों का हक प्रमाण पत्र दो निदेशकों या बोर्ड या उसकी समिति जैसी भी स्थिति हो सकती है द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्तियों और अद्वितीय रूप से अधिकृत व्यक्तियों के अंतर्गत निदेशकों की ओर से कार्य करने वाले सचिव या इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कुछ अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में और के हस्ताक्षर युक्त कंपनी की मुहर के अंतर्गत जारी किया जाएगा। यदि बोर्ड की संरचना इसकी अनुमति देती है, तो उपर्युक्त दो निदेशकों में से कम से कम एक निदेशक प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न व्यक्ति होंगे। ऐसे शेयरों का प्रमाण पत्र ऐसे शेयर के हस्तांतरण के पंजीकरण के लिए आवेदन के बाद, जैसी भी स्थिति हो, शेयरों के आवंटन के मामले में आवंटन के बाद तीन दो महीने के भीतर या अंतरण के मामले में अंतरण के विलेख की कंपनी द्वारा प्राप्ति की तिथि से एक महीने के भीतर या कंपनी द्वारा पारेषण की सूचना की प्राप्ति की तिथि से एक महीने के भीतर या ऋणपत्रों के आवंटन के मामले में ऐसे ऋणपत्रों की आवंटन की तिथि से छह महीने के भीतर इस अधिनियम की धारा 453 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वितरित किए जाने वाले इस अधिनियम की धारा 443 56 के प्रावधानों के अधीन होंगे। बशर्ते हमेशा कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी,

शेयर का हक प्रमाण पत्र इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के ऐसे अन्य प्रावधानों जैसाकि उस समय और समय-समय पर प्रवृत्त हो सकते हैं, के अनुसार निष्पादित और जारी किया जा सकता है। कोई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित शेयर या शेयरों के संबंध में, कंपनी से अधिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगी और कई संयुक्त धारकों में से को शेयर के प्रमाण पत्र का वितरण इस प्रकार के सभी धारकों के लिए पर्याप्त वितरण होगा। ऊपरोक्त के होते हुए भी, प्रतिभूतियों का प्रमाण पत्र, यथा संशोधित इस अधिनियम, एससीआर अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, और किसी भी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाएगा, ।

- vi. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 20 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

प्रत्येक सदस्य उसके नाम पर पंजीकृत प्रत्येक वर्ग या मूल्यवर्ग के सभी शेयरों के लिए विक्रेय लॉट में से एक या एक से अधिक प्रमाणपत्रों के लिए या, यदि निदेशक इस प्रकार अनुमोदित करते हैं (ऐसे शुल्क या शुल्कों का भुगतान करने पर या शुल्कों के भुगतान के बिना निदेशक के विवेक पर जैसाकि निदेशक समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं) प्रत्येक वर्ग के या से अधिक शेयरों के लिए प्रत्येक कई प्रमाण पत्र के लिए भुगतान के बिना हकदार होगा। शेयरों के प्रत्येक प्रमाण पत्र में ऐसे ब्यौरे होंगे और ऐसे रूप में होंगे जैसाकि यथा संशोधित कंपनियां (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 ~~कंपनियां (प्रमाणपत्रों का निर्माण) नियम, 1960~~ या उसके प्रतिस्थापन या संशोधन में किसी भी अन्य नियम द्वारा निर्धारित है। जहां सदस्य ने अपनी होल्डिंग में शामिल शेयरों का हिस्सा हस्तांतरित कर दिया है कि वह बिना प्रभार के शेष के लिए प्रमाण पत्र का हकदार होगा।

- vii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 21 (1) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

लागू कानून के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर प्रमाण पत्र का नवीकरण किया जा सकता है या प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी की जा सकती है यदि (क) कंपनी की संतुष्टि के लिए और इस प्रकार की क्षतिपूर्ति के निष्पादन पर जैसाकि कंपनी पर्याप्त समझे इस प्रकार का/के प्रमाण पत्र खो गया/गए या नष्ट हो गया/गए सिद्ध हो जाते हैं, या (ख) विरूपित हो जाने या विकृत हो जाने या फट जाने या घिसपिट जाने पर ~~कंपनी को समर्पित कर दिया जाता है या~~ (म) उसके पीछे की ओर बेचान या हस्तांतरण के लिए आगे और जगह न रह जाने पर कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और कंपनी को समर्पित कर दिया जाता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक प्रमाण पत्र शुल्क के भुगतान पर यदि निदेशक ऐसा निर्णय करते हैं, या ऐसे शुल्क के भुगतान पर (प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए 50 रुपये से अधिक न हो) जैसाकि निदेशक निर्धारित करेंगे, जारी किया जाएगा।

- viii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 21 (2) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

प्रमाण पत्र के निर्माण या नवीकरण या उसकी प्रतिलिपि के निर्माण का तरीका, प्रमाण पत्र (मूल या नवीकृत) या उसकी प्रतिलिपि का रूप, सदस्यों के रजिस्टर में या रजिस्टर या नवीकृत प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र की नकल में दर्ज या किए जाने वाले विवरण, ऐसे रजिस्ट्रों का रूप, वह शुल्क जिसके भुगतान पर, नियम और शर्तें जिस पर प्रमाण पत्र का नवीकरण किया जा सकता है या उसकी प्रतिलिपि जारी की जा सकती है, ऐसी होंगी जैसाकि कंपनियां ~~(प्रमाणपत्रों का निर्माण) नियम, 1960~~ या उसके प्रतिस्थापन या संशोधन में किसी भी अन्य नियम द्वारा निर्धारित है। इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के नियमों या विनियमों या अपेक्षाओं, एससीआर अधिनियम और या इस संबंध में लागू कसी अन्य अधिनियम या नियम द्वारा निर्धारित है।

प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित पूर्वगामी अनुच्छेदों के प्रावधानों ऋणपत्र (सिवाय जहां अधिनियम अन्यथा अपेक्षा करता है) सहित किसी भी अन्य प्रतिभूतियों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

- ix. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 19ए संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

इन अनुच्छेदों में निहित किसी बात के होते हुए भी, कंपनी अपनी प्रतिभूतिया डीमैट करने और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अनुसार डीमैट रूप में प्रतिभूतियों की पेशकश करने की हकदार होगी। इस प्रकार डीमैट की गई प्रतिभूतियों के संबंध में निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अलावा सेबी के प्रासंगिक परिपत्र और निर्देश और प्रासंगिक विनियम लागू होंगे। निक्षेपागार में लेनदेन की गई प्रतिभूतियों के लिए, कंपनी तुरंत ऐसी प्रतिभूतियों के आवंटन पर निक्षेपागार को प्रतिभूतियों के आवंटन के विवरण की सूचना देगी।

- x. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 27 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

यदि किसी भी शेयर के निर्माण की शर्तों या अन्यथा द्वारा कोई भी राशि किसी भी निश्चित समय पर या निश्चित समय पर किस्तों द्वारा देय बनाई जाती है, चाहे नाममात्र के मूल्य ~~सेयर की ससि~~ के आधार पर या प्रीमियम के माध्यम से, किस्तों की ऐसी प्रत्येक राशि देय होगी जैसेकि यह निदेशकों द्वारा विधिवत की गई कॉल हो और जिसकी उचित सूचना दी जा चुकी है और इसमें कॉल के संबंध में निहित सभी प्रावधान तदनुसार ऐसी राशि या किस्तों से संबंधित होंगे।

- xi. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 28 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

यदि किसी भी कॉल या किस्त के संबंध में देय राशि का उसके भुगतान के लिए नियत दिन को या से पहले भुगतान नहीं किया जाता है तो तत्समय के लिए धारक या शेयर का आवंटिजिसके संबंध में कॉल किया गया होगा या किस्त देय होगी, ऐसी दर पर उस पर ब्याज का भुगतान करेगा जैसाकि निदेशक उसके भुगतान के लिए नियत दिन से लेकर वास्तविक भुगतान के समय तक समय-समय पर तय करेंगे, लेकिन निदेशक पूर्ण या अंश में इस प्रकार के ब्याज का भुगतान माफ कर सकते हैं। बोर्ड के विवेक पर कॉल रद्द या स्थगित किया जा सकता है।

- xii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 30 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

निदेशक, यदि उन्हें उपयुक्त लगता है (इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन) उसका अग्रिम भुगतान करने के लिए तैयार किसी भी सदस्य से वास्तव में कॉल की गई राशि से परे उसके द्वारा धारित शेयरों पर देयसंपूर्ण स्मैन्धन या उसके किसी भी हिस्से के लिए सहमत हो सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं और अग्रिम में इस प्रकार भुगतान या संतुष्ट किए गए धन या उसके उतने भाग पर जैसाकि समय-समय पर शेयरों पर उस समय की गई कॉल की राशि से अतिरिक्त होता है जिसके संबंध में इस प्रकार का अग्रिम भुगतान किया गया है कंपनी ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान कर सकती है जिसपर अग्रिम में ऐसी राशि का भुगतान करने वाला सदस्य और निदेशक सहमत होते हैं और निदेशक ऐसे सदस्य को लिखित में एक महीने की सूचना देकर किसी भी समय इस प्रकार अग्रिम में दी गई राशि का पुर्नभुगतान कर सकते हैं; बशर्ते कि शेयरों पर कॉल के अग्रिम में भुगतान की धनराशि पर ब्याज हो सकता है लेकिन लाभांश या मुनाफे में भागीदारी करने का अधिकार प्रदान नहीं करेंगी।

अग्रिम में इसप्रकार की राशि का भुगतान करने वाला कोई भी सदस्य तब तक उसके द्वारा इस प्रकार भुगतान की गई धनराशियों के संबंध में मताधिकार का हकदार नहीं होगा जब तक यह, लेकिन इस प्रकार के भुगतान के लिए वर्तमान में देय नहीं हो जाता। इस अनुच्छेद के प्रावधानों कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋणपत्रों पर कॉल करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

- xiii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 38 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

कोई भी सदस्य जिसका शेयर जब्त कर लिया गया है, जब्ती के होते हुए भी, कंपनी को ऐसे शेयरों पर बकाया या के संबंध में सभी कॉल, किश्तों, ब्याज, खर्च और अन्य धनराशियों का ऐसी दरों पर जब्ती के समय से लेकर भुगतान तक उस पर ब्याज के साथ-साथ जब्ती के समय पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और झट से भुगतान करेगा जैसाकि निदेशकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और निदेशक संपूर्ण या उसके हिस्से का भुगतान लागू कर सकते हैं यदि उन्हें उपयुक्त लगता है, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी बाध्यता के अधीन नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति का दायित्व समाप्त हो जायेगा यदि और जब कंपनी इन शेयरों के संबंध में इस प्रकार की समस्त धनराशि का पूरा भुगतान प्राप्त कर लेगी।

- xiv. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 39 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

कंपनी का अपने पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं होगा। प्रत्येक सदस्य के नाम पर पंजीकृत (चाहे पूरी तरह से या किसी अन्य या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से हो) आंशिक रूप से चुकता शेयर/ऋणपत्र के मामले में और उसकी विक्री की प्राप्ति पर, ऐसे शेयरों/ऋणपत्रों के संबंध में निश्चित समय पर मांगे गए या देय (चाहे वर्तमान में देय हो या नहीं) सभी धनराशियों के लिए केवल कंपनी का पहला और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार होगा और किसी भी शेयर में कोई भी समतायोग्य ब्याजसृजित नहीं होगा इस फुटिंग और शर्त पर कि इस अनुच्छेद का पूरा प्रभाव होगा। ऐसी कोई भी ग्रहणाधिकार इस अधिनियम की धारा-205 के अधीन ऐसे शेयरों/ऋणपत्रों के संबंध में घोषित समय-समय पर, सभी लाभांशों और बोनस तक विस्तारित होगी। जब तक अन्यथा सहमति प्राप्त न हो, शेयरों/ऋणपत्रों के हस्तांतरण का पंजीकरण ऐसे शेयरों/ऋणपत्रों पर कंपनी के ग्रहणाधिकार, यदि कोई हो, की माफी के रूप में काम करेगा बशर्ते कि बोर्ड किसी भी समय कोई भी शेयर इस धारा के प्रावधानों से पूरी तरह से या आंशिक रूप से मुक्त घोषित कर सकता है।

- xv. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 48 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

संबंधित शेयर प्रमाणपत्रों और इस प्रकार के साक्ष्य के साथ जैसाकि बोर्ड अंतरणकर्ता की हकदारी, शेयरों का हस्तांतरण करने का उसका अधिकार सिद्ध करने के लिए अपेक्षा कर सकता है और आम तौर पर ऐसी शर्तों और विनियमों के अंतर्गत जैसाकि बोर्ड समय समय पर निर्धारित करेगा, निष्पादन की तिथि से साठ दिनों की अवधि या ऐसी कम अवधि के भीतर जैसाकि लागू कानून के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है, पंजीकरण के लिए विधिवत मोहर युक्त हस्तांतरण का प्रत्येक विलेख कंपनी को प्रस्तुत किया जाएगा, और हस्तांतरण का प्रत्येक पंजीकृत विलेख कानून के प्रावधानों के अधीन निदेशक मंडल के आदेश से नष्ट किए जाने तक कंपनी की अभिरक्षा में बना रहेगा।

- xvi. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 51 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अनुच्छेद के अनुसार हस्तांतरण से भिन्न किसी अन्य कानूनी तरीके से किसी सदस्य की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन, दिवालियापन या परिसमापन के परिणामरूप शेरों के लिए हकदार बनने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर जैसाकिसमय-समय पर उचित रूप से बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो सकता है और विषयाधीन जैसाकि इसके आगे प्रावधान किया गया है या तो (क) शेर धारक के रूप में खुद को पंजीकृत कराने का; या (ख) शेर का ऐसा हस्तांतरण करने का जैसाकि मृतक या दिवालिया सदस्य ने किया होता, चुनाव कर सकता है। बोर्ड के पास, दोनों ही मामले में, पंजीकरण ठुकराने या निलंबित करने का वही अधिकार होगा, जैसाकि उसके पास होता यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने अपनी मृत्यु या दिवालियापन से पहले बोर्ड की सहमति से शेर हस्तांतरित किया होता। ~~जिससे देने के लिए बोर्ड किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जिसका वह वह चरित्र कायम रखता है जिसके या अपने हक के संबंध में वह इस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करने का प्रस्ताव करता है जैसाकि बोर्ड या तो शेरधारक के रूप में उसे पंजीकृत किए जाने हेतु या उसके द्वारा कुछ व्यक्ति नामित करवाने और निदेशक मंडल द्वारा ऐसे शेरों के धारक के रूप में पंजीकृत अनुमोदित करवाने हेतु चुनाव पर्याप्त मानता है।~~

बशर्ते फिर भी, जो व्यक्ति अपने नामित पंजीकृत करवाने का चुनाव करेगा अपने नामित के पक्ष में इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरण का विलेखनिष्पादित करके चुनाव की गवाही देगा, और जब तक वह ऐसा नहीं करेगा, वह शेरों के संबंध में किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा।

- xvii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 52 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

कोई शुल्क हस्तांतरण, पारेषण, सम्प्रमाण, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और पत्र प्रशासन, मृत्यु या विवाह प्रमाण पत्र, पावर ऑफ अटार्नी या इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं प्रभारित किया जाएगा। ~~कंपनी में किसी भी शेर के हस्तांतरण या पारेषण के संबंध में कंपनी को कोई शुल्क नहीं देना होगा।~~

- xviii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 54 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

बोर्ड के पास प्रत्येक वर्ष में, एक बार में तीस दिन से अनधिक और कुल पैंतालीस दिन से अनधिक या ऐसी अपेक्षकृत कम अवधि के/की, जैसाकि लागू कानून के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे समय या समयों पर और ऐसी अवधि या अवधियों के लिए जैसाकि यह समीचीन समझे, हस्तांतरण बही, सदस्य का रजिस्टर या ऋणपत्र धारकों का रजिस्टर बंद करने के लिए जिले की प्रमुख स्थानीय भाषा में और उस स्थान में व्यापक प्रसार रखने वाले भाषाई समाचार पत्र में जहां ~~जिले में वितरित होने वाले कुछ समाचार पत्रों में जिसमें~~ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, उस जिले में वितरित होने वाले और उस स्थान में व्यापक प्रसार रखने वाले जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है अंग्रेजी समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में, एविज्ञापन द्वारा ऐसे ढंग से जैसाकि निर्धारित किया जा सकता है, कम से कम एक बार कम से कम सात दिन की या ऐसी अपेक्षकृत कम अवधि की, जैसाकि लागू कानून के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है पूर्व सूचना देने की और वेबसाइट पर जैसाकि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है और कंपनी की वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित करने की शक्ति होगी।

- xix. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 55 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

इस अधिनियम, ~~इन अनुच्छेदों की अधिनियम, 1956 की धारा 144~~ तथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, और किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड, अपने पूर्ण और अनियंत्रित विवेक पर कंपनी के किन्हीं भी शेरों, चाहे पूरी तरह से भुगतान किया गया हो या नहीं, या इसमें सदस्य के ब्याज या ऋणपत्रों के अधिकार का हस्तांतरण या कानून की संकिया द्वारा पारेषण पंजीकृत करने या स्वीकार करने से इन अनुच्छेदों के अंतर्गत या अन्यथा कंपनी की किसी भी शक्ति के अनुसार कारण सहित मना कर सकता है, और अस्वीकार करने का अधिकार इन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगा कि प्रस्तावित अंतरिती पहले से ही कंपनी का सदस्य है लेकिन इस प्रकार के मामलों में, और कंपनी उस तिथि से जिस तिथि को हस्तांतरण के विलेख, या इस प्रकार के पारेषण, जैसी भी स्थिति हो, की सूचना कंपनी को दी गई थी तीस दिनों ~~के महीने~~ या ऐसी अपेक्षकृत कम अवधि के भीतर जैसाकि लागू कानून के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है, अंतरिती और अंतरणकर्ता को या ऐसे पारेषण की सूचना देने वाले व्यक्ति को जैसी भी स्थिति हो, इस प्रकार की अस्वीकृति के लिए कारण देते हुए अस्वीकृति की सूचना भेजेगी।

बशर्ते कि हस्तांतरण का पंजीकरण, सिवाय जहां कंपनी का शेरों पर ग्रहणाधिकार है, किसी भी आधार पर चाहे जो भी हो कंपनी के प्रति अंतरणकर्ता के अकेले या किसी/किन्हीं अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से ऋणी होने के आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा। हस्तांतरण चाहे जिस भी लॉट में हो मना नहीं किया जाएगा।

- xx. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 58 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

इन प्रस्तुतियोंमेंकुछ का भी यथा संशोधित इस अधिनियम के प्रावधानों, इन अनुच्छेदों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अधीन किन्हीं भी शेयरों का पंजीकरण मना करने की कंपनी की शक्तियों पर प्रतिकूल नहीं प्रभाव होगा।

- xxi. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 64 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

आम बैठक में कंपनी के प्रस्ताव की मंजूरी के साथ निदेशक किन्हीं भी चुकता शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित कर सकते हैं और किसी भी मूल्यवर्ग के चुकता शेयरों में सभी या किसी भी स्टॉक को परिवर्तित कर सकते हैं। कोई शेयर स्टॉक में परिवर्तित कर दिएजाने परइस प्रकार के स्टॉक के कई धारक उसके बाद से अपना संबंधित ब्याज उसमें याउसी तरीके से और उन्हीं विनियमों के अधीन इस प्रकार के ब्याज का कोई भाग हस्तांतरित कर सकते हैं और जिसके अधीन कंपनी की पूंजी में पूरी तरह से चुकता शेयर हस्तांतरित या यथा उसके निकट किए जा सकते हैं जैसकि परिस्थितियां स्वीकार करें।

- xxii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 67 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

67. (1) जहां किसी भी समय बोर्ड या कंपनी, जैसीस्थिति हो सकती है, आगे और शेयरों के निर्गमनद्वारा सदस्यता पूंजी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं तो ऐसे शेयरों की इस अधिनियम की धारा 62 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन पेशकश की जाएगी। ~~नए शेयर (उपरोक्त की भांति पूंजी की वृद्धि से उत्पन्न), इस अधिनियम के प्रावधानों और इन प्रस्तुतियों के अधीन, आम बैठक में कंपनी द्वारा या अनुच्छेद 8 और 9 के प्रावधानों और निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों के अंतर्गत निदेशकों द्वारा निर्गमित किए और निपटारे जा सकते हैं: -~~

- xxiii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 67(ए)(i) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

(ए) (i) ~~इस प्रकार के नए शेयर~~ ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे जो पेशकश की तिथि को स्थिति कोनेचे (ii) से (iv) में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव का पत्र भेज कर उन शेयरों पर चुकता शेयर पूंजी के लगभग उतने अनुपात में जितना परिस्थितियां स्वीकार करती है कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक हैं

- xxiv. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 67(ए)(ii) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं और 67 (1)(ए)(ii) के रूप में पुनर्संख्यांकन किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

उपर्युक्त प्रस्ताव प्रस्ताव की तिथि से पंद्रह दिन से कम नहीं और तीस दिन से अधिक नहीं समय पर इस प्रकार प्रस्ताव किए गए लेकिन सीमित करने वाले शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करने वाले सूचना द्वारा किए जाएंगे, जिसके भीतर यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है, तो मना कर दिया गया समझा जाएगा;

- xxv. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 67(iv) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं और 67 (1)(ए)(iv) के रूप में पुनर्संख्यांकन किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

पूर्वोक्त सूचना में निर्धारित समय की समाप्ति के बाद या जिस व्यक्ति को इस प्रकार की सूचना दी गई है उससे पूर्व सूचना मिलने पर कि वह व्यक्ति इस प्रकार प्रस्ताव किए गए शेयर अस्वीकार करता है, निदेशक मंडल उनका ऐसे ढंग से निपटान कर सकते हैं कि जो शेयरधारकों और कंपनी के लिए हानिकार नहीं हो ~~जैसाकि उन्हें कंपनी के लिए सबसे अधिक फायदेमंद समझा है;~~

- xxvi. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 67(बी) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं और 67 (2) के रूप में पुनर्संख्यांकन किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

धारा (1)(ए) की उपधारा (iii) में कुछ भी को नहीं समझा जाएगा: -

(i) समय का विस्तार करने वाला जिसके भीतर प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए; या

(ii) इस आधार पर दूसरी बार परित्याग के अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करने वाला वह व्यक्ति जिसके पक्ष में पहली बार परित्याग किया गया था ने परित्याग में समझौता किए गए शेयरों को लेने से मना कर दिया है।

- xxvii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 71(ए) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

कंपनी आम बैठक में साधारण संकल्प द्वारा अपने ज्ञापन की शर्तों में इस प्रकार बदलाव कर सकती है: —

अपने मौजूदा शेयरों की तुलना में बड़ी राशि के शेयरों में अपनी सारी या ~~किसी~~ कोई शेयरपूंजीसमेकित और विभाजित करना; बशर्ते कि कोई भी समेकन और विभाजन जिसका परिणाम शेयरधारकों के मतदान प्रतिशत में परिवर्तन होता है, तब तक नहीं प्रभावी होगा जब तक निर्धारित तरीके से किए गए आवेदन पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा इसे मंजूरी नहीं दे दी जाती है।

- xxviii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 76 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

छूट, प्रीमियम या ~~अन्य~~ अन्यथा पर निर्गमित कोई भी बंधपत्र, ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टॉक या अन्य ऋण प्रतिभूतियां और इस शर्त पर निर्गमित की जा सकती हैं कि वे किसी भी मूल्यवर्ग के शेयरों में और विमोचन, समर्पण, आहरण, शेयरों के आवंटन, कंपनी की आम बैठक में भाग लेने, निदेशकों की ~~नियुक्ति~~ नियुक्ति और अन्यथा के संबंध में किसी विशेष विशेषाधिकार के साथ परिवर्तनीय होंगे, शेयरों में रूपांतरण के अधिकार के साथ ऋणपत्र या शेयरों का आवंटन केवल विशेष संकल्प द्वारा आम बैठक में कंपनी की सहमति से जारी किया जाएगा।

- xxix. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 80(बी) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

प्रत्येक वार्षिक आम बैठक उस दिन को जो ~~सर्वजनिक~~ राष्ट्रीय अवकाश नहीं होगा व्यापारिक घंटों के दौरान यानी 9 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम के बीच के समय के लिए बुलाई जाएगी, और या तो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या शहर के भीतर कुछ अन्य स्थानों पर जहां पंजीकृत कार्यालय स्थित है आयोजित की जाएगी और बैठक बुलाने वाली सूचनाइसे वार्षिक आम बैठक के रूप में निर्दिष्ट करेगी।

- xxx. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 82(एफ) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

यदि बोर्ड, किसी भी प्रकरण के संबंध में वैध अनुरोध जमा होने की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर, अनुरोध के जमा होने से पैंतालिस दिनों से बाद नहीं दिन को उन प्रकरणों के विचारण के लिए बैठक बुलाने के लिए विधिवत आगे नहीं बढ़ता है तो, अनुरोध की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसे अनुरोधकर्ताओं द्वारा बैठक बुलाई और आयोजित की जा सकती है जो या उन सभी के द्वारा धारित चुकता शेयर पूंजी के मूल्य में बहुमत का या कंपनी की ऐसी चुकता शेयर पूंजी के दसवें भाग से कम नहीं जैसाकि धारा (डी) में संदर्भित है जो भी कम हो, का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि, इस धारा के प्रयोजन के लिए बोर्ड, ऐसी बैठक की स्थिति में जिसमें प्रस्ताव विशेष संकल्प के रूप में रखे जाने के लिए प्रस्तावित हैं, इसकी ऐसी सूचना देगा जैसाकि इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है;

- xxxi. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 83(बी) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

धारा (ए) में निर्दिष्ट अवधि की तुलना में संक्षिप्त सूचना देने के बाद आम बैठक बुलाई जा सकती है यदि ऐसी बैठक में मतदान करने के लिए हकदार पंचानबे प्रतिशत सदस्यों से कम नहीं द्वारा लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड से इसकी सहमति दी जाती है;

~~(i) वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के हकदार सभी सदस्यों द्वारा वार्षिक आम बैठक के मामले में, और~~

~~(ii) (i) कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के ऐसे हिस्से के नब्बे प्रतिशत से कम नहीं धारण करने वाले कंपनी के सदस्यों द्वारा किसी अन्य बैठक के मामले में जो उन्हें बैठक में मतदान करने का अधिकार देता है।~~

बशर्ते कि जहां कंपनी का कोई भी सदस्य बैठक में लाए जाने वाले केवल कुछ ही संकल्पों पर न कि दूसरों पर मतदान करने का हकदार हैं, उन सदस्यों का पूर्व संकल्प या प्रस्तावों के संबंध में न कि अवरोक्त के संबंध में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ध्यान रख जाएगा।

- xxxii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 84(बी) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

कंपनी की प्रत्येक बैठक की सूचना दी जाएगी

(i) ~~इस अधिनियम की धारा 53-20 द्वारा अधिकृत किसी भी तरीके से~~ कंपनी के प्रत्येक सदस्य, किसी भी मृतक सदस्य के कानूनी प्रतिनिधि या दिवालिया सदस्य के समनुदेशित को

(ii) कंपनी के प्रत्येक निदेशक को, ऐसे व्यक्तियों को है जो सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन के परिणामस्वरूप भोग्य के हकदार हैं, उन्हें नाम से, मृतक के प्रतिनिधि, या दिवालिया के समनुदेशित के भीषक से संबंधित प्रीपेड पत्र में डाक के माध्यम से इसे भेजकर या इस प्रकार हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए भारत में दिए गए पते, यदि कोई हो, पर किसी ऐसे ही विवरण से या जब तक इस प्रकार के पते की आपूर्ति नहीं की जाती है, किसी भी तरीके से सूचना देकर जिसमें यह दिया गया हो सकता है कि मौत या दिवालिया नहीं हुआ है।

(iii) कंपनी के किसी भी सदस्य या सदस्यों के मामले में इस अधिनियम की धारा 5320 द्वारा अधिकृत किसी भी तरीके से कंपनी के तत्समय लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों को;

xxxiii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 85(ए)(i) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

वार्षिक आम बैठक के मामले में निम्नलिखितोक्त से संबंधित व्यापार के अपवाद के साथ बैठक में संव्यवहार किए जाने वाले सभी व्यापारविशेष समझे जाएंगे:

वित्तीय विवरण ~~संज्ञा, बैलेंस शीट~~ और निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन का विचारण;

xxxiv. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 85(सी) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

जहां बैठक में संव्यवहार किए जाने वाले व्यापार की कोई भी मद उपरोक्तानुसार विशेष मानी जाती है, वहाँ बैठक की सूचना से उसमें प्रत्येक निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई हो, प्रत्येक अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और इस प्रकार के निदेशक के रिश्तेदार, प्रबंधक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के विशेष रूप से संबंध या हित की प्रकृति सहित व्यापार की इस प्रकार की प्रत्येक मद से संबंधित सभी तथ्य स्थापित करने, वाला विवरण संलग्न होगा।

बशर्ते कि जहां कंपनी की बैठक में संव्यवहार किए जाने वाले उपरोक्तानुसार विशेष व्यापार की कोई भी मद किसी अन्य कंपनी से संबंधित है, या प्रभावित करती है, वहां कंपनी के प्रत्येक निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई हो, और प्रत्येक अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी का उक्त दूसरी कंपनी में शेयरधारिता हित की हद को भी विवरण में निर्धारित किया जाएगा यदि इस प्रकार के शेयरधारिता की हद उक्त दूसरी कंपनी की चुकता पूंजी के ~~अधे~~ दो प्रतिशत से कम नहीं है।

xxxv. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 87 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

(1) जहां इस अधिनियम में या इन प्रस्तुतियों में निहित किसी भी प्रावधान द्वारा, किसी भी प्रस्ताव विशेषकी सूचना अपेक्षित है, संकल्प लाने के इरादे की सूचना बैठक जिसमें इसे लाया जाना है, उस दिन जिस दिन सूचना दिया जाता है या दिया गया समझा जाता है और बैठक के दिन को छोड़कर, से पहले तीन महीने, लेकिन ~~कम से कम~~ चौदह दिन से कम नहीं, से पहले सदस्यों की ऐसी संख्या द्वारा कंपनी को दिया जाएगा जैसाकि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित है,।

(2) कंपनी द्वारा इस प्रकार का कोई संकल्प लाए जाने की सूचना प्राप्त किए जाने के तुरंत बाद कंपनी अपने सदस्यों को उसी तरीके से संकल्प की सूचना देगी जैसे वह बैठक की सूचना देती है, या यदि यह साध्य नहीं है, तो बैठक से सात दिन से कम नहीं इससे पहले या तो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित तरीके से या इन प्रस्तुतियों द्वारा अनुमत किसी अन्य विधा से ~~उपरोक्त प्रसार करने वाले~~ समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा उन्हें सूचना देगी और इस प्रकार की सूचना वेबसाइट पर भी डाली जाएगी।

xxxvi. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 88 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

इस अधिनियम की धारा 103 के प्रावधानों के अधीन, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पांच ~~सदस्य~~ सदस्य आम बैठक के लिए गणपूर्ति होंगे और तब तक किसी भी आम बैठक में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक अपेक्षित कोरम व्यापार के प्रारंभ में मौजूद नहीं होगा।

xxxvii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 91 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

यदि आम बैठक के आयोजन के लिए नियत समय के बाद आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होता है तो बैठक यदि शेयरधारकों की मांग पर शुरू की गई: भंग कर दी जाएगी और किसी भी अन्य मामले में उसी समय और स्थान पर या इस प्रकार के दूसरे दिन के लिए और ऐसे समय और स्थान पर जैसाकि निदेशक निर्धारित कर सकते हैं अगले सप्ताह उसी दिन के लिए स्थगित बनी रहेगी;। ऐसे स्थगित बैठक में भी कोरम बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य कोरम होंगे और वह कार्यवाही कर सकते हैं जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी। हालांकि, स्थगित बैठक या दिन, समय या बैठक की जगह के परिवर्तन के मामले में कंपनी या तो व्यक्तिगत रूप से या इस ढंग से समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करके जैसाकि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित है सदस्यों को तीन दिनों से कम नहीं की सूचना देगी।

xxxviii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 93 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

किसी भी आम बैठक में बैठक के मतदान के लिए रखा गया प्रस्ताव हाथ दिखाकर निर्णीत होगा, जब तक कि इसके आगे वर्णित तरीके से मतदान (हाथ दिखाने पर परिणाम की घोषणा से पहले या पर) की मांग नहीं की जाती है या मतदान

इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित किया जाएगा, और जब तक इस प्रकार मांग किया गया मतदान, अध्यक्ष द्वारा घोषणा कि संकल्प, हाथों के प्रदर्शन पर, संचालित किया गया है या सर्वसम्मति से संचालित किया गया या विशेष बहुमत से, या खो गया है और कंपनी की कार्यवाही की किताब में उक्त प्रभाव के लिए प्रवेश इस तथ्य या इस प्रकार के प्रस्ताव के विरुद्ध निर्णायक साक्ष्य होगा।

- xxxix. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 94(ए)(ii) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

जिस पर ~~मन्दास-हजम~~ पांचलाख रुपये से कम नहीं की कुल राशि चुकता की गई है।

- xl. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 97(ए) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

जहां मतदान लिया जाना है, बैठक का अध्यक्ष इस ढंग से मतदान में दिए गए मतों की जांच करने के लिए और उस पर उसे प्रतिवेदन करने के लिए दो जांचकर्ता नियुक्त करेगा जैसाकि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

- xli. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 103 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

कोई भी सदस्य कंपनी से इस निमित्त उसके द्वारा अनुरोध किए जाने के सात कार्यदिवसों के भीतर इस प्रकार के आरोपों पर जैसाकि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है ऊपर निर्दिष्ट किसी भी विवरण की प्रति प्रस्तुत किए जाने के लिए हकदार होगा।

- xlii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 116ए संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

इन अनुच्छेदों में निहित के विपरीत कुछ होते हुए भी लागू सीमा तक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के कुछ प्रावधानों सहित बोर्ड की संरचना, निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के तरीके से संबंधित सामान्य अपेक्षाएं, आचार संहिता और कंपनी के शासन से संबंधित अन्य आनुषंगिक और पारिणामिक मामलों के संबंध में समय-समय पर सेबी द्वारा जारी किए गए और/या नियमों में प्रावधान किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

- xliii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 118(एए) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) आम तौर पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अग्रेषित व्यक्तियों के नामों पर विचार करने के बाद समय-समय पर, कंपनी के निदेशक मंडल में 'लोकहित निदेशकों' के रूप में संदर्भित तीन से अधिक नहीं व्यक्तियों नामित कर सकता है जो प्रतिभूति बाजार से संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक पेशेवर क्षमता और अनुभव रखने वाले सत्यनिष्ठा वाले लोगों में से इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 'स्वतंत्र निदेशक' होंगे। हालांकि सेबी के पास ऐसे व्यक्तियों को भी मनोनीत करने का अधिकार होगा, जिनके नाम कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अग्रेषित नहीं किए गए हैं। हालांकि, सेबी किसी भी समय तीन से अधिक लोकहित निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है ताकि अनुच्छेद 118क और 118कक के अंतर्गत नामित निदेशकों की कुल संख्या शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सके।

- xliv. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 120 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

(i) इस अधिनियम की धारा 443161 के अधीन, निदेशक मंडल भारत ~~सम्पन्न~~ जिसमें बोर्ड की बैठकें आमतौर पर आयोजित की जाती हैं से तीन महीने से कम नहीं की अवधि के लिए निदेशक की अनुपस्थिति के दौरान उसके सुझाव पर या अन्यथा निदेशक (इसके आगे से इस अनुच्छेद में 'मूल निदेशक' कहा जाएगा) के लिए कार्य करने के लिए वैकल्पिक निदेशक नियुक्त कर सकता है।

(ii) धारा (ए) के अंतर्गत नियुक्त वैकल्पिक निदेशक उस मूल निदेशक के लिए अनुमत अवधि की तुलना में लंबी अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा जिसकी जगह पर उसे नियुक्त किया गया है और पद छोड़ देगा यदि और जब मूल निदेशक राज्य ~~जिसमें बोर्ड की बैठकें आमतौर पर आयोजित की जाती हैं~~ भारत लौटेगा।

(iii) यदि मूल निदेशक का कार्यकाल उसके ~~उत्प्रेषण~~ ~~समय~~ भारत में इस प्रकार वापस लौटने से पहले निर्धारित किया जाता है तो एक और नियुक्ति के चूक में अवकाश ग्रहण करने वाले निदेशकों की स्वतः पुनर्नियुक्ति के लिए कोई भी प्रावधान मूल निदेशक न कि वैकल्पिक निदेशक के लिए लागू होगा।

- xlv. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, संशोधित किया जाने वाला अनुच्छेद 127(1) बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु हैं):

इसअधिनियम की धारा 283 (2) 164 के प्रावधान के अधीन, निदेशक का पद खाली हो जाएगा यदि:

(क) वह अस्वस्थ चित्त का होना ~~मामूम~~ है और सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा ऐसा घोषित है;

(ख) उसने/ ~~बह~~ दिवालिया ठहराए जाने के लिए आवेदन किया है ~~करता~~ है और उसका आवेदन लंबित है; या

(ग) वह अनुमोचित दिवालिया है, उसे ~~दिवालिया ठहराया गया है~~, या

(घ) उसे किसी भी अपराध का अदालत ने दोषी ठहराया है, चाहे नैतिक अधमता या अन्यथा शामिल हों; और उसके संबंध में छह महीने से कम नहीं के लिए कारावास दण्ड दिया है और सजा की समाप्ति की तिथि से पांच साल की अवधि नहीं गुजरी है।;

(ङ) अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए उसे अयोग्य ठहराने वाला आदेशपारित किया गया है और प्रवृत्त है;

(च) ~~बह~~ उसने उसके द्वारा धारित कंपनी के शेयरों के संबंध में किसी भी कॉल का ~~भुगतान करने में विफल रहा है~~ भुगतान नहीं किया है, चाहे अकेले या संयुक्त रूप से दूसरों के साथ, इस प्रकार की गई कॉल के भुगतान के लिए तय अंतिम तिथि के भीतर से छह महीने बीत गए हैं ~~जब तक कि केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रकार की विफलता द्वारा बहन की गई अयोग्यता हटा नहीं दिया है, या~~

(छ) उसे पिछले पांच पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान किसी भी समय इस अधिनियम की धारा 188 के अंतर्गत संबंधित पक्ष संव्यवहार से संबंधित अपराध का दोषी ठहराया गया है; या

(ज) उसने इस अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (3) का पालन नहीं किया है।

(ड) निदेशक मंडल से अनुपस्थिति की छुट्टी के बिना वह खुद को निदेशकों की लगातार तीन बैठकों या तीन महीने की निरंतर अवधि के लिए निदेशक की सभी बैठकों, जो भी लंबी हो, से अनुपस्थित रखता है या

बह (चाहे अपने लाभ के लिए या अपने उत्तरदायित्व पर खुद के द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा) या कोई भी फर्म जिसमें वह साझेदार है या कोई निजी कंपनी जिसका वह निदेशक है इस अधिनियम की धारा 295 का उल्लंघन करते हुए कंपनी से ऋण या ऋण के लिए गारंटी या प्रतिभूति स्वीकार करता है या

(च) वह इस अधिनियम की धारा 299 का उल्लंघन करते हुए कार्य करता है; तथा

(छ) वह इस अधिनियम की धारा 203 के अंतर्गत अदालत के आदेश से अयोग्य हो जाता है; या

(ज) वह अपनी पदावधि की समाप्ति से पहले कंपनी के साधारण संकल्प द्वारा धारा 284 के अनुसरण में पद से हटा दिया जाता है; या

(i) वह कंपनी को या निदेशकों को संबंधित लिखित रूप में सूचना द्वारा पद से इस्तीफा दे देता है; या

(जे) वह, उसके रिश्तेदार या साझादार या कोई भी फर्म, जिसमें वह या उसके रिश्तेदार साझादार हैं या कोई निजी कंपनी जिसका वह निदेशक या सदस्य है इस अधिनियम की धारा 314 का उल्लंघन करते हुए कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता है; या

कंपनी में कोई भी पद या अन्य रोजगार धारण करने की हैसियत से निदेशक नियुक्त होने पर, उसी कंपनी में इस प्रकार का पद या अन्य रोजगार धारण करना समाप्त हो जाएगा।

xlvi. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, संशोधित किया जाने वाला अनुच्छेद 127(2) बोल्ट में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु हैं):

उप-अनुच्छेद (I) की धारा (सीडी), (छड) (सीई) और (आईजी) में निहित कुछ भी के होते हुए भी उन धाराओं में संदर्भित अयोग्यता प्रभावी नहीं होगी:

(क) अधिनिर्णय या दण्ड या आदेशदोषसिद्धि या अयोग्यता के आदेश की तिथि से तीस दिन के लिए;

(ख) जहां अधिनिर्णय या दण्ड या दोषसिद्धि जिसके परिणामस्वरूप दण्ड या आदेश होता है के विरुद्ध उपरोक्तानुसार तीस दिनों के भीतर कोई अपील या याचिका अधिमनित की जाती है। उस तिथि से सात दिन की समाप्ति तक जिस तिथि को ऐसी अपील या याचिका का निपटारा किया जाता है; या

जहां ऐसी पुनः अपील या याचिका का निपटारा होने तक सात दिनों के भीतर आदेश या दण्ड के विरुद्ध पुनः अपील या याचिका अधिमनित की जाती है जहां सात दिनों के भीतर अधिनिर्णय, दण्ड, दोषसिद्धि या आदेश और याचिका की अपील के संबंध में, यदि अनुमति है, पूर्वोक्त किसी भी पुनः अपील या याचिका अधिमनित की जाती है का परिणाम अयोग्यता का हटाना होता है जब तक कि इस प्रकार की पुनः अपील या याचिका का निपटारा नहीं हो जाता है।

- xlvi. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 137(1) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

कोई भी व्यक्ति, अवकाश ग्रहण करने वाले निदेशक नहीं, किसी भी आम बैठक में निदेशक के पद के लिए चुनाव के लिए पात्र होगा, जब तक कि वह या उसे प्रस्तावित करने के लिए इच्छुक कुछ अन्य सदस्यों ने निदेशक के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी दर्शाने वाली सूचना उसकी हस्तलिपि में कार्यालय पर बैठक से कम से कम चौदह स्पष्ट दिन पहले, छोड़ नहीं दिया है याम्ब-समेक लाख रुपये की राशि की जमा के साथ उक्त पद के लिए उम्मीदवार के रूप में उसका प्रस्ताव करने वाले ऐसे सदस्य का इरादा जो ऐसे व्यक्ति को या जैसी स्थिति हो सकती है ऐसे सदस्य को वापस लौटा दिया जाएगा, यदि वह व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने में सफल होता है।

- xlvi. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 137(2) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित है (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

कंपनी बैठक से सात दिनों से कम नहीं पहले सदस्यों को अलग-अलग सूचना देने के लिए निदेशक के पद के लिए व्यक्ति की उम्मीदवारी की या उक्त पद के लिए उम्मीदवार के रूप में ऐसे व्यक्ति का प्रस्ताव करने वाले सदस्य के इरादे की अपने सदस्यों को सूचना देगी। बशर्ते कि उपरोक्तानुसार सदस्यों को अलग-अलग सूचना देना कंपनी के लिए आवश्यक नहीं होगा यदि कंपनी उस स्थान पर जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, वितरित होने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में, जिनमें से एक अंग्रेजी भाषा में और दूसरा उस जगह की क्षेत्रीयस्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है बैठक से सात दिनों से कम नहीं पहले इस प्रकार की उम्मीदवारी या इरादे का विज्ञापन देती है।

- xlix. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 140 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

निदेशक मण्डल कार्यवाही के संचालन-डिस्पैच-के लिए एक-साथ बैठक कर सकता हैं, अपनी बैठकें और कार्यवाहियां स्थगित या विनियमित कर सकता हैं, जैसा वे उचित समझें, बशर्ते कि प्रत्येक तीन माह में बोर्ड की बैठक कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी- निदेशक मण्डल की इस तरह कम से कम चार बैठकें होंगी कि लगातार दो बैठकों के बीच 120 (एक सौ बीस) से अधिक नहीं दिनों का अंतर न हो।

- i. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 142 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

कम्पनी के बोर्ड की प्रत्येक बैठक का नोटिस भारत में तत्समय मौजूद प्रत्येक निदेशक को और प्रत्येक अन्य निदेशक को भारत में सम्मान्य पते पर कम्पनी के पास दर्ज उसके पते पर सात दिन से कम नहीं का नोटिस देकर लिखित में दिया जाएगा।

- ii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 145 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

कम्पनी के निदेशकों की बैठक के लिए कोरम उसकी कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई होगा (उस एक तिहाई में यदि कोई भिन्नात्मक संख्या है तो उसे राउंड ऑफ करके एक माना जाएगा) या दो निदेशक होंगे, जो भी अधिक हो, और विडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों द्वारा निदेशकों की भागीदारी को भी कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा, बशर्ते कि जब किसी भी बैठक में रूची लेने वाले निदेशकों की संख्या कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक होगी या बराबर होगी तो ऐसे स्थिति में रूची न रखने वाले निदेशक जो दो से कम नहीं संख्या में बैठक में उपस्थित होंगे ऐसे समय के दौरान कोरम माने जाएंगे, और बशर्ते कि जब निदेशक के साथ या किसी फर्म के साथ जिसका निदेशक सदस्य है या किसी निजी कम्पनी के साथ जिसका निम्नलिखितोक्त के लिए निदेशक सदस्य है, कम्पनी द्वारा या कम्पनी की ओर से कोई अनुबंध या व्यवस्था किया जाएगा, तो यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा

क) कम्पनी के शेयरों या ऋणपत्रों के बीमांकन या सब्सक्रिप्शन; या

ख) किसी अन्य कम्पनी के शेयरों या ऋणपत्रों की खरीद या बिक्री; या

ग) कम्पनी द्वारा ऋण।

इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए :-

(1) "कुल संख्या" से आशय कम्पनी के निदेशकों की कुल संख्या से है जैसाकि इस अधिनियम के अनुसार उसमें से ऐसे निदेशकों की संख्या घटाकर निर्धारित किया जाए जिनका स्थान उस समय रिक्त हो सकता है

(2) "रूची लेने वाले निदेशकों" से आशय इस अनुच्छेद के लिए धारा 184(2) के अर्थाधीन निदेशक से है से आशय ऐसे किसी भी निदेशक से है जिसकी उपस्थिति इस अधिनियम की धारा 300 के कारण किसी मुद्दे पर चर्चा या मतदान के समय बोर्ड की बैठक में कोरम का गठन करने के प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जा सकती है।

- iii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 146 (ए) संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

यदि कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक नहीं आयोजित हो पाती है, तो जब तक कि प्रत्येक बैठक में उपस्थित निदेशक अन्यथा निर्णय नहीं करते हैं तो बैठक स्वतः उसी समय और स्थान पर अगले सप्ताह उसी दिन और यदि उस दिन सार्वजनिक राष्ट्रीय अवकाश है तो उसी समय और स्थान पर क्रमिक रूप से अगले दिन तक स्थगित रहेगी जिस दिन सार्वजनिक राष्ट्रीय अवकाश नहीं होगा।

- liii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 150 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

कोई भी प्रस्ताव परिपत्र द्वारा बोर्ड द्वारा या उसकी समिति द्वारा तब तक विधिवत पारित किया गया नहीं माना जाएगा जब तक कि वह प्रस्ताव प्रारूप के रूप में अनिवार्य दस्तावेजों सहित, यदि कोई हो, भारत में तत्समय मौजूद सभी निदेशकों या समिति के सभी सदस्यों को (संख्या में कम न हों जितना बोर्ड या समिति की बैठक के लिए कोरम नियत है जैसी भी स्थिति हो) और अन्य सभी निदेशकों या सदस्यों को भारत में उनके सामान्य पते पर भेजा नहीं जाता है या ऐसे निदेशकों द्वारा जो उस समय भारत में मौजूद हों या उनके ऐसे बहुमत द्वारा अनुमोदित न किया गया हो जो प्रस्ताव पर मतदान करने के हकदार हैं। जहाँ कम्पनी के निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम नहीं यह चाहता है कि परिपत्र के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव बैठक में तय किया जाए, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक में निर्णीत किए जाने हेतु रखेगा।

- liv. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 153 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

निदेशक इस अधिनियम की धारा ~~459, 295, 297, 299, 303, 305, 307 और 308~~ 92, 170, 184, 186 के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे जो वार्षिक आय, निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों के रजिस्टर और उनकी शेरधारिता, निदेशकों द्वारा हित की घोषणा, निदेशकों को दिए गए ऋणों आदि और लागू सीमा तक संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन से संबंधित हैं।

- lv. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 155 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

बोर्ड ~~कम्पनी की ओर से~~ इस अधिनियम की धारा 179(3) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में सम्मिलित मामलों के संबंध में निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा ~~और केवल अपनी बैठकों में पारित किए गए प्रस्ताव के माध्यम से ऐसा करेगा।~~

i. ~~शेरधारकों को उनके शेयरों पर भुगतान नहीं की गई धनराशि के संबंध में बुलाने की शक्ति;~~

ii. ~~ऋणपत्र जारी करने की शक्ति~~

iii. ~~ऋणपत्रों के अलावा धन उधार लेने की शक्ति;~~

iv. ~~कम्पनी की निधियां निवेश करने की शक्ति, और~~

v. ~~ऋण देने की शक्ति~~

बशर्ते कि बोर्ड बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव द्वारा इस अधिनियम की धारा ~~292 की उपधारा क्रमशः (2) (3) और (4) में निर्दिष्ट सीमा तक धारा (सी) (डी) और (ई)~~ धारा 179(3)(डी) से (एफ) में निर्दिष्ट शक्तियां कम्पनी के निदेशकों की किसी भी समिति, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या किसी अन्य प्रधान अधिकारी या शाखा कार्यालय के मामले में शाखा कार्यालय के प्रधान अधिकारी को सौंप सकता है।

- lvi. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 156 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

बोर्ड विशेष प्रस्ताव द्वारा सामान्य बैठकों में केवल कम्पनी की सहमति से ~~को छोड़कर नहीं~~ निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा:

(क) कम्पनी का सम्पूर्ण या लगभग संपूर्ण उपक्रम बेचना, पट्टे पर देना या अन्यथा निपटारा करना, या जहां कम्पनी एक से अधिक सम्पूर्ण उपक्रम या लगभग ऐसे किसी सम्पूर्ण उपक्रम की स्वामी हैं

(ख) निदेशक से ब्रम्स किसी भी ऋण का पुर्नभुगतान करने के लिए छूट देना या समय देना

(ग) इस प्रकार के किसी भी उपक्रम के जैसा कि धारा (ए) में संदर्भित है, या ऐसे किसी भी उपक्रम के लिए प्रयुक्त किसी भी परिसर या संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के संबंध में जिसके बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है या केवल कठिनाई से किया जा सकता है या केवल काफी समय बाद किया जा सकता है। विलय या समामेलन के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि ट्रस्ट प्रतिभूतियों में निवेश को छोड़कर निवेश करना,

(घ) पैसा ~~ऋण~~ उधार लेना जहां उधार लिया जाने वाला पैसा कम्पनी द्वारा पहले से उधार लिए गए पैसे (सामान्य व्यापारिक कामकाज के दौरान कम्पनी के बैंकर्स से अस्थायी रूप से प्राप्त ऋण के अतिरिक्त) के साथ मिलकर कम्पनी की चुकता पूंजी और उसकी स्वतंत्र आरक्षित पूंजी से अधिक हो जाता है, अर्थात् आरक्षित पूंजी किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग न रखना।

(ड) यदि किसी भी वित्तीय वर्ष में कोई भी राशि जिनका सकल योग तीन ~~वित्तीय वर्षों~~ तत्काल क्रमागत वित्तीय वर्षों के लिए, जो भी अधिक हो, औसत शुद्ध लाभ से 50,000 रुपये ~~सपांच~~ प्रतिशत अधिक हो जाती है ~~जैसा कि के दौरान इस अधिनियम की धारा 198, 349 और 350 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित है~~ तो धर्मार्थ और अन्य निधियों जो सीधे कम्पनी के व्यापार या उसके कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित नहीं हैं में योगदान देना

- lvii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 160 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

बोर्ड कम्पनी के उद्देश्य के लिए एक सामान्य मुहर प्रदान करेगा और उसके पास समय समय पर इसे नष्ट करने और इसके स्थान पर एक नई मुहर प्रतिस्थापित करने की शक्ति होगी, और बोर्ड तत्समय के लिए इस मुहर को सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करेगा और केवल बोर्ड या निदेशक समिति के प्राधिकार से या के अंतर्गत छोड़कर ~~और~~ एक निदेशक या सचिव या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में को ~~छोड़कर~~ इस मुहर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिसे इसके लिए कम से कम प्राधिकृत किया गया होगा, जो उस प्रत्येक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा जिस पर मुहर लगी है बशर्ते कि शेयर प्रमाणपत्रों पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे जैसा कि समय समय पर लागू कम्पनी (शेयर प्रमाणपत्रों का निर्गमन) नियमावली में प्रावधान होगा। अगर अधिनियम में अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है, दस्तावेज या कार्यवाही जिसके लिए कम्पनी के सत्यापन की आवश्यकता है, उस पर निदेशक, या सचिव या बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकता है इसे इसकी मुहर के अंतर्गत होने की जरूरत नहीं है।

- lviii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 176 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

इस अधिनियम की धारा 128 के अनुसार बोर्ड (: ~~बोर्ड~~-(क) कम्पनी को प्राप्त हुई, उसके द्वारा व्यय की गई सभी धनराशियों और वे सभी मामले जिनके संबंध में इस प्रकार की प्राप्ति और व्यय होता है; (ख) कम्पनी द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की सभी बिक्रियों और खरीद और (ग) कम्पनी की सम्पत्तियां, साख और देनदारियों के संबंध में ~~सत्य खाते रखवाएंगे~~) और सामान्यतः अपने सभी वाणिज्यिक, वित्तीय और अन्य मामलों की उचित खाताबहियां रखवाएगा, जो कम्पनी की सही वित्तीय स्थिति और दशा दर्शाने के लिए आवश्यक हैं, और खाते अंग्रेजी भाषा में इस अधिनियम की धारा ~~209(3)~~128 में किए गए प्रावधान के अनुसार रखे जाएंगे, और खाताबहियां पंजीकृत कार्यालय में या ~~कम्पनी अधिनियम 1956~~ के प्रावधानों के अनुपालनाधीन भारत में ऐसे स्थान या स्थानों पर रखी जाएंगी जैसाकि बोर्ड उचित समझे (जहां इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है, तो कम्पनी इसके सात दिनों के अंदर उक्त दूसरे स्थान का पूरा पता देते हुए रजिस्ट्रार को लिखित में सूचना देगी) और व्यापार के घण्टों के दौरान निदेशकों द्वारा जांच किए जाने हेतु उपलब्ध रहेंगी।

- lix. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 178 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

इस धारा का शीर्षक "सामान्य बैठक में पेश किए जाने वाले खातों का विवरण और प्रतिवेदन, प्रत्येक सदस्य को प्रदान की जाने वाली बैलेंस शीट" के स्थान पर "प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक में पेश किए जाने वाले खातों के विवरण और प्रतिवेदन" किया जाए।

कम्पनी की प्रत्येक वार्षिक बैठक में कम्पनी का बोर्ड ऐसी बैठक के समक्ष वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण रखेगा और ~~प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार बोर्ड कम्पनी के सामुख वार्षिक सामान्य बैठक में पूर्ववर्ती खाते के बाद की अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट प्रस्तुत करेगा जिसमें कम्पनी की सम्पत्ति और देनदारियों का एक सारांश होगा जो वर्तमान स्थिति तक का होगा और बैठक से छह माह से अधिक अवधि पहले का नहीं होगा या यदि जहां ऐसी विस्तारित अवधि तक बैठक का आयोजन करने के लिए विस्तार प्रदान किया गया है और प्रत्येक ऐसा बैलेंस शीट जैसाकि धारा 247-134 द्वारा अपेक्षित है कम्पनी की स्थिति और दशा के संबंध में और उनके द्वारा रिजर्व फंड, सामान्य रिजर्व या रिजर्व खाता के लिए अलग रखे जाने हेतु निर्धारित राशि (यकद कोई हो)के संबंध में, जिसे विशेष रूप से बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है या अनुवर्ती बैलेंस शीट में विशेष रूप से दर्शाया जाना होता है। निदेशकों का प्रतिवेदन (इसके साथ संलग्न किए जाने हेतु) भी संलग्न किया जाएगा~~

- lx. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 179 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

इस धारा का शीर्षक "बैलेंस शीट का स्वरूप और विषयवस्तु व लाभ और हानि खाता" के स्थान पर "वित्तीय विवरण का स्वरूप और विषयवस्तु" किया जाए।

कम्पनी का प्रत्येक वित्तीय विवरण ~~बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता~~ कम्पनी की वास्तविक और स्पष्ट स्थिति दर्शाएगा और इस अधिनियम की धारा ~~244~~ 129 और 133 के प्रावधानों के अधीन इस अधिनियम की अनुसूची ~~VI~~ III के भाग क्रमशः 1 और 2 में निर्धारित स्वरूप में होगा, या परिस्थितियों के अनुसार इसके अधिकतम समान होगा।

- lxi. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 180 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

इस धारा का शीर्षक "बैलेंस शीट और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन सदस्यों को भेजी जाने वाली उनकी प्रतियां" के स्थान पर "वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन सदस्यों को भेजी जाने वाली उनकी प्रतियां" किया जाए।

(1) कम्पनी की बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता वित्तीय विवरण कम्पनी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा जहां उसे बोर्ड या दो निदेशकों द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिनमें से एक निदेशक प्रबंधनिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, यदि वह कम्पनी में निदेशक है, और कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी और कम्पनी सचिव, चाहे जहां भी वे प्रबंधक या सचिव द्वारा, यदि कोई है, और दो या दो से अधिक निदेशकों द्वारा, जिनमें से एक प्रबंधनिदेशक होगा, यदि नियुक्त किया गया है, या जब उस समय के दौरान भारत में केवल एक निदेशक होगा तो, इस प्रकार के निदेशक या प्रबंधक या सचिव द्वारा नियुक्त हों। लेकिन बाद वाले मामले में संबंधित निदेशक बैलेंस शीट के साथ उसके द्वारा हस्ताक्षरित विवरण संलग्न करेगा जिसमें उसका कारण स्पष्ट करेगा। बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता वित्तीय विवरण इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की ओर से हस्ताक्षरित होने और प्रतिवेदन के लिए लेखापरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किए जा से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगा। लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन बैलेंस शीट एवं लाभ एवं हानि खाते वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किया जाएगा या वित्तीय विवरणों के नीचे पृष्ठ पर प्रतिवेदन के संदर्भ के रूप में डाला जाएगा।

(2) लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रति के साथ लेखापरिक्षित इस प्रकार के वित्तीय विवरणों बैलेंस शीट एवं लाभ एवं हानि खातों की प्रति बैठक, जिसमें इस अधिनियम की धारा 249 101 के प्रावधानों के अधीन कम्पनी के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना है, से कम से कम इक्कीस दिन पहले कम्पनी के प्रत्येक सदस्य को, कम्पनी द्वारा जारी किसी भी ऋणपत्र धारक के लिए प्रत्येक निक्षेपधारी को, चाहे इस प्रकार के सदस्य या निक्षेपधारी उन्हें भेजी जाने वाली कम्पनी की सामान्य बैठक की सूचनाओं के अधिकारी हों या नहीं, और ऐसे सदस्यों और निक्षेपधारियों से भिन्न उन सभी अन्य व्यक्तियों को भेजी जाएगी जो इसके हकदार हैं और इसकी एक प्रति उक्त बैठक से पहले कम से कम इक्कीस दिन की अवधि के दौरान कार्यालय में कम्पनी के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

Ixii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 181 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

शीर्षक-वित्तीय विवरण बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता और दाखिल की जाने वाली लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रतियां

सामान्य बैठक में कम्पनी के समक्ष वित्तीय विवरण बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता रखने के बाद प्रबंधक या सचिव या जैसाकि इस अधिनियम की धारा 220 137 द्वारा अपेक्षित है हस्ताक्षरित इसकी तीन प्रतियां इस अधिनियम की धारा 92 450 और 464 की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक रिटर्न के साथ इस अधिनियम की धारा 220-137 में निर्धारित समय अवधि के अंदर कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएंगी।

Ixiii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 182 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

वर्ष में कम से कम एक बार कम्पनी के खातों का तुलन और लेखापरिक्षण किया जाएगा और बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता वित्तीय विवरणों की शुद्धता एक या अधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

Ixiv. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 185 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):

(1) कम्पनी के प्रत्येक लेखापरीक्षक को कम्पनी की बहियों और खातों और वाउचर्स को हर समय देखने का अधिकार होगा और कम्पनी के निदेशकों और अधिकारियों से ऐसी जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा जैसाकि लेखापरीक्षक के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो और लेखापरीक्षक शेरशर्धारकों को अपने द्वारा परीक्षित खातों पर और प्रत्येक बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते व इस अधिनियम द्वारा बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते का भाग होने के लिए और के साथ संलग्न किए जाने के लिए घोषित प्रत्येक अन्य दस्तावेजों पर प्रतिवेदन देंगे जिन्हें कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक में रखा जाता है, और प्रतिवेदन बताएंगी कि क्या उनकी राय में और उनके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त खाते स्पष्ट तथा अपेक्षित ढंग से इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं या नहीं और (i) कम्पनी के वित्त वर्ष के अंत में कम्पनी के मामलों की स्थिति की बैलेंस शीट के मामले में और (ii) कम्पनी के वित्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के लाभ और हानि खाते के मामले में सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं या नहीं अपने द्वारा परीक्षित खातों और उन सभी वित्तीय विवरणों पर शेरशर्धारकों को प्रतिवेदन देंगे जिन्हें इस अधिनियम द्वारा और के अंतर्गत सामान्य बैठक में कम्पनी के समक्ष रखना अपेक्षित है, और प्रतिवेदन यह बताएगा कि क्या उनकी राय में और उनके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार उक्त खाते कम्पनी के वित्त वर्ष के अंत में कम्पनी के मामलों और लाभ और हानि और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह और ऐसे अन्य मामलों की, जैसाकि निर्धारित किया जा सकता है, सही और निष्पक्ष तस्वीर देते हैं।

(2) लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत निर्धारित मामलों का विवरण भी देगा। लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन यह भी बताएगा (क) कि क्या उन्होंने वे सभी व्याख्याएं और सूचनाएं प्राप्त कर ली हैं जो उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उनके लेखापरीक्षण के लिए आवश्यक हैं (ख) कि क्या उनकी राय में, कम्पनी द्वारा जैसाकि कानून द्वारा अपेक्षित है उचित बहीखाते रखे गए हैं जहां तक उन बहीखातों की जांच से प्रतीत होता है, और उनके लेखापरीक्षण के प्रायोजन के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जहां वे नहीं गए हैं (ग) कि क्या कम्पनी की बैलेंस शीट और लाभ और

हानि खाता जिन्हें प्रतिवेदन में शामिल किया गया है, खाताबहियों और रिटर्न के अनुसार हैं जहां मद (1) और (2) या उपर्युक्त (ए), (बी), (सी) में संदर्भित किसी भी मामले का उत्तर नकारात्मक या योग्यता के साथ दिया जाता है लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन इसका कारण स्पष्ट करेंगा।

(3) लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते से संलग्न किया जाएगा और उसके नीचे डाला जाएगा और सामान्य बैठक में कंपनी के समक्ष ऐसा प्रतिवेदन पढ़ा जाएगा और कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

- lxv. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 186 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):
- कम्पनी की किसी भी सामान्य बैठक के संबंध में सभी नोटिस और अन्य सम्प्रेषण जिन्हें प्राप्त करने का कंपनी का कोई भी सदस्य हकदार है, कम्पनी के लेखापरीक्षकों को भी अग्रेषित किया जाएगा और लेखापरीक्षक या तो स्वयं से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि जो लेखापरीक्षक की योग्यता रखता होगा, के माध्यम से किसी भी सामान्य बैठक जिसमें वे भाग लेंगे और कार्रवाई के किसी भी भाग जो उनसे लेखापरीक्षक के रूप में संबंधित होगा में भाग लेने और सुने जाने के अधिकारी होंगे।
- lxvi. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 188 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):
- (1) दस्तावेज (जिसमें कोई भी बुलावा, नोटिस, अध्यायन, आदेश, घोषणा, प्रपत्र और रजिस्टर शामिल हैं) किसी भी सदस्य को उसे डाक द्वारा या पंजीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या कूरियर द्वारा भेजकर या उसके कार्यालय या पते पर डिलिवर करके, या इलैक्ट्रॉनिक विधा या किसी अन्य विधा द्वारा भेजा जा सकता है जैसाकि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित है।
- (2) जहां दस्तावेज (जिसे इस उद्देश्य के लिए कोई भी बुलावा, अध्यायन, प्रक्रिया, आदेश निर्णय या कम्पनी के सम्मान के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज शामिल करने वाला जाएगा), या नोटिस डाक द्वारा भेजा जाता है, वहां इस प्रकार का नोटिस देना उचित पता देने, पूर्व भुगतान करने और नोटिस युक्त पत्र पोस्ट करने से प्रभावी होना माना जाएगा बशर्ते कि जहां सदस्य ने कम्पनी को अग्रिम रूप से सूचित कर दिया है कि उसे दस्तावेज डाक भेजने के प्रमाण पत्र के अंतर्गत या पंजीकृत डाक द्वारा या देय पावती के साथ या के बिना भेजा जाए, और ऐसा करने का व्यय चुकाने के लिए उसने पर्याप्त राशि शुल्क कम्पनी में जमा कर दी है, तो दस्तावेज या नोटिस की सेवा तब प्रभावी मानी जाएगी जब तक कि इसे सदस्य द्वारा बताया गए ढंग से नहीं भेजा जाता है, और जब तक इसके विपरीत सिद्ध नहीं होता है, नोटिस युक्त पत्र भेजे जाने के बाद अड़तालीस घण्टे की समाप्ति पर बैठक के नोटिस के मामले में, और किसी अन्य मामले में उस समय इस प्रकार की सेवा प्रभावी होना मानी जाएगी जिस समय पत्र साधारण डाक प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचेगा। सदस्य किसी विशेष विधा के माध्यम से दस्तावेज भेजने का अनुरोध कर सकता है, जिसके लिए वह अधिनियम के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा।
- lxvii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 190 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):
- प्रत्येक सामान्य बैठक का नोटिस इसके पहले अधिकृत ढंग से निम्नलिखित को दिया जाएगा (क) कम्पनी के प्रत्येक सदस्य को (जिनमें शेयर अधिपत्र के धारक शामिल हैं), (ख) सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन के परिणामस्वरूप शेयर के अधिकारी व्यक्ति को जो लेकिन उसकी मृत्यु या दिवालियापन के लिए बैठक का नोटिस प्राप्त करने का अधिकारी होगा, (ग) कम्पनी के लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों और साथ ही (घ) कम्पनी का प्रत्येक निदेशक को।
- lxviii. जैसाकि इसके अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 195 संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं: (बोल्ड में दिए गए शब्द शामिल किए जाने हेतु और आर-पार काटे गए विधा वाले शब्द विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं):
- (1) इस अधिनियम की ~~भ्रमस-2014~~ के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी का निदेशक मण्डल, तत्समय प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारी या अन्य कर्मचारी, लेखापरीक्षक और निक्षेपधारी, यदि कोई है, जो उस समय कम्पनी के किसी भी मामले के संबंध में कार्य कर रहे हों और उनमें से प्रत्येक और उनके उत्तराधिकारियों में से प्रत्येक, कार्यकारी अधिकारी और प्रशासक सभी कार्यवाहियों, लागतों, प्रभारों, हानियों, क्षतियों और व्ययों से और के विरुद्ध कम्पनी की परिसम्पत्तियों और लाभों से क्षतिपूरित और अहानिकर रखें जाएंगे जिसे उन्हें या उनमें से किसी को, उनके उत्तराधिकारियों, कार्यकारी अधिकारियों या प्रशासकों को अपने संबंधित पदों और निक्षेपों में अपने कर्तव्य या माने गए कर्तव्य के निष्पादन में या के संबंध में किए गए, समवर्ती या विलोपित किसी कार्य से या किसी कारणवश वहन करने या संभालना पड़ेगा या पड़ सकता है, सिवाय, ऐसा, यदि कोई हो, जैसाकि उन्हें अपनी स्वयं की जानबूझकर लापरवाही या चूक के माध्यम से या से वहन करना या संभालना पड़ेगा।
- (2) जहां तक इस अनुच्छेद के प्रावधान इस अधिनियम की ~~भ्रमस-2014~~ में शामिल नहीं किए जाएंगे को छोड़कर, उनमें से कोई भी दूसरों या उनसे भिन्न के कार्यों, प्राप्तियों, लापरवाहियों या चूकों के लिए, या अनुपालन के लिए किसी भी प्राप्ति में भाग लेने के लिए, या किसी भी ऐसे बैंकर या अन्य व्यक्तियों के दिवालियापन के लिए जवाबदेह नहीं होगा, जिन्हें/जिनके पास कम्पनी से संबंधित कोई भी धनराशि या संपत्ति सुरक्षित अभिरक्षा के लिए या किसी भी प्रतिभूति की अपर्याप्तता या कमी के लिए सौंपी या जमा कराई जाती है, जिस पर कम्पनी से संबंधित कोई भी धनराशि किसी भी अन्य हानि, दुर्भाग्य या क्षति के लिए रखी जाएगी या निवेश की जाएगी जो उनके संबंधित पदों या टरस्टों या उनके संबंध में निष्पादन में हो सकती हैं, सिवाय कि जब ऐसा उनकी जानबूझकर लापरवाही या चूक से या के माध्यम से होगा।

(3) इस अधिनियम की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी का कोई भी निदेशक या अन्य अधिकारी किसी दूसरे निदेशक या अधिकारी के कार्यों, प्राप्तियों, लापरवाही या चूक के लिए या कम्पनी के लिए या कम्पनी की ओर से निदेशक के आदेश द्वारा अधिग्रहीत किसी सम्पत्ति के हक में अपर्याप्तता या कमी के माध्यम से कम्पनी को होनेवाली किसी भी हानि या व्यय के लिए या किसी ऐसी प्रतिभूति की अपर्याप्तता या कमी के लिए जिसमें या जिसके आधार पर कम्पनी की कोई भी धनराशि निवेश की जाएगी, या किसी ऐसे व्यक्ति के दिवालियापन, अनुमोचन या कपटपूर्ण कार्य से होने वाली हानि क्षति के लिए जिसके पास कोई भी धनराशि, प्रतिभूतियाँ या संपत्ति जमा कराई जाएगी, या उसकी ओर से निर्णय या निरीक्षण की किसी भी त्रुटि से होने वाली हानि या किसी अन्य हानि या क्षति, चाहे जो भी हो, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो अपने पद के कर्तव्यों या उसके संबंध में कर्तव्यों के निष्पादन में घटित होंगी, जब तक कि ऐसा उसकी स्वयं की लापरवाही या बेईमानी के कारण न हुआ हो।

(4) अधिनियम के प्रावधानों (अनुच्छेद 197 और अनुसूची V के साथ पठित अनुच्छेद 196 5 भागमिल हैं) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन यदि कम्पनी ने अपने प्रबंधनिदेशक, पूर्ण-कालिक निदेशक, प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी या कम्पनी सचिव की ओर से उनमें से किसी की भी लापरवाही, चूक, प्राधिकार का गलत प्रयोग, कार्य में कोताही या विश्वास तोड़ने के संबंध में उनकी किसी भी देनदारी के विरुद्ध उनकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई बीमा प्राप्त किया है जिसके लिए वे दोषी हो सकते हैं तो ऐसे किसी भी कर्मियों को देय पारिश्रमिकों का हिस्सा माना जाएगा। बशर्ते कि यदि इस प्रकार का व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो जाता है, तो इस प्रकार के बीमे के लिए भुगतान किया गए प्रीमियम को पारिश्रमिकों का हिस्सा माना जाएगा।

III. अनुच्छेदों को बदलने संबंधी परिवर्तन

i. वर्तमान अनुच्छेद 17 निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित है:

“जैसाकि कानून द्वारा अपेक्षित है को छोड़कर कम्पनी द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी ट्रस्ट पर किसी भी शेयर को धारण करने वाले के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी, और कम्पनी किसी भी शेयर में किसी भी समतायोग्य, आकस्मिक, भावी या आंशिक हित, शेयर के आंशिक भाग में किसी भी हित, या (केवल जैसाकि इन विनियमनों द्वारा या कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान किया जाता है को छोड़कर) किसी भी शेयर के संबंध में सिवाय पंजीकृत धारक में उसकी सम्पूर्णता में पूर्ण अधिकार के अन्य अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए किसी भी तरह से (चाहे इसका नोटिस प्राप्त हुआ है), बाध्य नहीं होगी या को विवश नहीं किया जाएगा।”

ii. वर्तमान अनुच्छेद 138(ए) निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित है:

“धारा 118ए और 118एए, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज एवं क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन्स) विनियम, 2012 के प्रावधानों या उसमें किसी भी परिवर्तन और इस अधिनियम की धारा 169 (1) के प्रावधानों के अधीन कम्पनी, साधारण प्रस्ताव द्वारा जिसका इस अधिनियम की धारा 169 (2) के अनुसार विशेष नोटिस दिया गया है किसी भी निदेशक को उसकी पदावधि समाप्त होने से पहले हटा सकती है और साधारण प्रस्ताव द्वारा जिसका विशेष नोटिस दिया गया है, हटाए गए निदेशक के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार से नियुक्त निदेशक उस तिथि तक पद धारण करेगा जब तक कि हटाया गया निदेशक करता यदि उसे इस प्रकार नहीं हटाया जाता। यदि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक को हटाने पर सृजित रिक्ति बैठक द्वारा इस प्रकार नहीं भरी जाती है जिसपर से उसे हटाया गया है, बोर्ड किसी भी समय उसके बाद इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अंतर्गत इस प्रकार की रिक्ति भर सकता है।”

iii. वर्तमान अनुच्छेद 170 निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित है:

“ के अंतरण के पंजीकरण के लिए लंबित लाभांश का अधिकार

जहां शेयरों के अंतरण का विलेख पंजीकरण के लिए कम्पनी के पास भेज दिया गया है और इस प्रकार के शेयरों का अंतरण कम्पनी द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है, इन अनुच्छेदों में अन्यथा प्रावधान होने के बावजूद यह इस प्रकार के शेयरों के संबंध में गैर चुकता लाभांश खाते में लाभांश अंतरित करेगा जब तक कि कम्पनी इस प्रकार के विलेख में निर्दिष्ट अंतरिती को इस प्रकार के लाभांश का भुगतान करने के लिए इस प्रकार के शेयर के पंजीकृत धारक द्वारा लिखित में अधिकृत नहीं की जाती है।”

iv. वर्तमान अनुच्छेद 172 निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित है:

“शेयरों के संबंध में नकद में देय किसी भी लाभांश, ब्याज या अन्य धनराशियों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक विधा से या धारक के पंजीकृत पते पर या संयुक्त धारकों के मामले में संयुक्त धारकों में से उस एक धारक को पंजीकृत पते पर जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में पहले दर्ज है, या ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों के पते पर निर्दिष्ट डाक के माध्यम से चेक या वारंट भेजकर किया जा सकता है, जैसाकि धारक या संयुक्त धारक लिखित में निर्देश दें।”

v. वर्तमान अनुच्छेद 173 निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित है:

“कम्पनी के प्रति किसी भी लाभांश पर कोई भी ब्याज नहीं होगा।

(1) जहां कम्पनी ने लाभांश की घोषणा की है लेकिन जिसका भुगतान नहीं किया गया है या उसके संबंध में लाभांश वारंट किसी ऐसे शेयरधारक को घोषणा की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अंदर नहीं भेजा गया है जो लाभांश के भुगतान का अधिकारी है, कम्पनी उक्त 30 (तीस) दिनों की अवधि की समाप्ति की तिथि से 7 (सात) दिनों के अंदर किसी भी अनुसूचित बैंक में इस संबंध में "नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का भुगतान रहित लाभांश खाता" नामक एक विशेष खाता खोलेगी और उक्त खाते में लाभांश की कुल राशि जो भुगतानरहित बनी रहती है या जिसके संबंध में कोई लाभांश वारंट नहीं भेजा गया है, स्थानांतरित करेगी।

(2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (5) के प्रावधानों के अधीन, कम्पनी के भुगतान रहित लाभांश खाते में स्थानांतरित कोई भी धनराशि जो ऐसे अंतरण की तिथि से सात वर्षों तक भुगतान रहित या दावा रहित बनी रहती है, कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि ("निधि") में अंतरित कर दी जाएगी।

(3) कानून द्वारा दावा प्रतिबंधित होने से पहले कम्पनी द्वारा कोई भी दावा रहित या भुगतान रहित लाभांश जब्त नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अस्थायी रूप से ऐसी कम्पनी की प्रतिभूतियों का लेन देन स्वीकार कर सकता है जो पूर्वगामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी अगली सामान्य बैठक में अपने अंतर्निर्णयों में संशोधन करने का उत्तरदायित्व लेती है और इस बीच इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत होती है। सभी भुगतान रहित और दावा रहित लाभांशों का निपटारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(4) कम्पनी पंजीकृत पते पर या सदस्य द्वारा पहले से ही कार्यालय को दिए गए पते पर लाभांशों के संबंध में डाक से भेजे गए, चाहे अनुरोध पर या अन्यथा किसी भी चेक, लाभांश वारंट या पोस्टल ऑर्डर के खो जाने के लिए या लाभांश के अधिकारी सदस्य या व्यक्ति को कोई लाभांश किसी चेक या वारंट के जाली समर्थन या किसी अन्य साधनों द्वारा उसकी जालसाजीभरी वसूली के कारण न मिलने पर उत्तरदायी नहीं होगी।"

vi. वर्तमान अनुच्छेद 175 निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित है:

"(क) कम्पनी बोर्ड की सिफारिश पर सामान्य बैठक में निर्णय कर सकती है —

(i) कि कम्पनी के किसी भी आरक्षित खाते की जमा के प्रति, या लाभ और हानि खाते में जमा के प्रति उस समय बाकाया या अन्यथा वितरण के लिए उपलब्ध राशि का कोई हिस्सा पूंजीकृत करना वांछित है; और

(ii) कि इस प्रकार की राशि ऐसे सदस्यों के बीच वितरित करने के लिए नीचे धारा (बी) में निर्धारित ढंग से मुक्त रखी जाए जो इसके अधिकारी होते यदि लाभांश के रूप में और उसी अनुपात में वितरित किया जाता।

(ख) उपर्युक्त राशि का भुगतान नकद नहीं किया जाएगा बल्कि या तो निम्नलिखित में या के प्रति नीचे धारा (3) में निहित प्रावधानों के अधीन लागू किया जाएगा:

(क) इस प्रकार के सदस्यों द्वारा धारित किन्हीं भी शेयरों पर उस समय भुगतान रहित राशि का भुगतान करना;

(ख) उपर्युक्त अनुपात में ऐसे सदस्यों को और के बीच पूरी तरह से चुकता रूप में आबंटित और वितरित किए जाने वाले कम्पनी के जारी न किए गए शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों का पूर्ण भुगतान करना;

(ग) अंशतः उप-धारा (ए) और अंशतः उप-धारा (बी) के प्रावधानों के अनुसार

(घ) पूरी तरह से चुकता बोनस भोयर्स को जारी करना; और

(ङ) प्रतिभूति प्रीमियम खाता और पूंजी शोधन रिजर्व खाता या कोई अन्य अनुमति प्राप्त रिजर्व खाता इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कंपनी के सदस्यों को पूर्ण रूप से चुकता बोनस शेयर के रूप में जारी किए जाने वाले अनिर्गमित शेयरों का भुगतान करने में लागू किया जा सकता है।

(ग) प्रतिभूति प्रीमियम खाता और पूंजी शोधन रिजर्व खाता या कोई अन्य अनुमति प्राप्त रिजर्व खाता इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कंपनी के सदस्यों को पूर्ण रूप से चुकता बोनस शेयर के रूप में जारी किए जाने वाले अनिर्गमित शेयरों का भुगतान करने में लागू किया जा सकता है।

vii. वर्तमान अनुच्छेद 183 निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित है:

"लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, योग्यता और पारिश्रमिक

वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनःनियुक्ति, चक्रानुक्रम, पदमुक्ति, त्यागपत्र, पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, अयोग्यता, पारिश्रमिक, भाक्तियां और कर्तव्य आदि इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार होंगे।

iv. निम्नलिखित अनुच्छेदों को वर्तमान अनुच्छेदों में जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

i. अनुच्छेद 67(1)(बी) अनुच्छेद 67(1)(ए) के बाद इस प्रकार अंतर्विष्ट किए जाने हेतु प्रस्तावित है:

(ख) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन)(स्टॉक एक्सचेंज एवं क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन) विनियम, 2012 या उनमें किए गए किसी परिवर्तन के अधीन कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के अधीन या नियमों या ऐसे अन्य शर्तों के अधीन जैसाकि लागू कानून के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है कर्मचारियों के स्टॉक विकल्प की किसी भी योजना के अधीन कर्मचारियों को, या

ii. अनुच्छेद 67(1)(सी) उपरोक्त अंतर्विष्ट अनुच्छेद 67(1)(बी) के बाद इस प्रकार अंतर्विष्ट किए जाने हेतु प्रस्तावित है:

(ग) किसी भी व्यक्ति को, यदि यह विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत है, चाहे उन व्यक्तियों में उपरोक्त धारा (ए) या धारा (बी) में वर्णित व्यक्ति शामिल हों या नहीं, या तो नकद या नकद से भिन्न विवेचन के लिए, यदि इस प्रकार के शेयरों की कीमतों का निर्धारण ऐसी शर्तों के अधीन पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के मूल्यांकन प्रतिवेदन द्वारा किया जाता है जैसाकि इस अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है।

iii. अनुच्छेद 67(3) पुनर्संख्याबद्ध अनुच्छेद 67(2) के बाद इस प्रकार अंतर्विष्ट किए जाने हेतु प्रस्तावित है:

इस अनुच्छेद में कुछ भी कम्पनी द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों या लिए गए ऋण से सलग्न नियम के रूप में इस प्रकार के ऋणपत्रों या ऋणों को कम्पनी में शेयरों के रूप में बदलने के लिए या कम्पनी के शेयरों को सब्सक्राइब करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने से कम्पनी की अभिमत पूंजी में की वृद्धि के लिए लागू नहीं होगा:

बशर्ते कि इस प्रकार ऋणपत्रों या इस प्रकार के विकल्प सहित ऋण को जारी करने की शर्तों का इस प्रकार के ऋणपत्रों को जारी करने या ऋण लेने से पहले इसका अनुमोदन पहले कम्पनी की सामान्य बैठक में एक सामान्य प्रस्ताव द्वारा पारित करके किया गया हो।

iv. अनुच्छेद 67(4) उपरोक्त अंतर्विष्ट अनुच्छेद 67(3) के बाद इस प्रकार अंतर्विष्ट किए जाने हेतु प्रस्तावित है:

धारा 67 (4) के प्रावधानों के बावजूद, जहां कोई भी ऋणपत्र जारी किया गया है, या कम्पनी द्वारा किसी सरकार से ऋण लिया गया है, और यदि वह सरकार सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो यह एक आदेश के द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस प्रकार के ऋणपत्रों या ऋणों या उनके किसी हिस्से को कम्पनी के शेयरों में परिस्थितियों के अनुसार उचित एवं न्यायसंगत शर्तों पर परिवर्तित करेगी, चाहे इस प्रकार के ऋणपत्रों या इस प्रकार के ऋणों को जारी करने की शर्तों में इस प्रकार के परिवर्तन करने की शर्त शामिल न हो:

बशर्ते कि जहां इस प्रकार के परिवर्तन के नियम एवं शर्तें कम्पनी को स्वीकार्य हैं, तो यह इस प्रकार के आदेश के मिलने की तिथि से साठ दिन के अंदर राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल को अपील कर सकती है जो कम्पनी और सरकार की सुनवाई के बाद उचित निर्णय देगा।

शेयरों का आगे निर्गमन बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रणाली से किया जा सकता है, जो अधिनियम और उसके नियमों के अनुसार और उन पर निर्भर है, जिसमें अधिमाम्य पेशकश और निजी व्यवस्था शामिल हैं।

v. धारा 172 के के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित हैं:

लाभांश कैसे विप्रेषित किया जाए

172 ए

ऐसे प्रत्येक चेक या वारंट उसी व्यक्ति के आदेश पर देय होगा जिसको यह भुगतान किया जाना है। यह भुगतान हर दशा में पैसे का भुगतान किए जाने वाले व्यक्ति के जोखिम पर किया जाएगा। भुगतान के कहीं खो जाने या उसमें देरी होने के लिए कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी। कम्पनी की ओर से भुगतान माना जाएगा और सही अदायगी माना जाएगा यदि एक भुगतान को पूर्वगामी स्वीकार्य माध्यमों के द्वारा किया जाता है।

172 बी

एक शेयर के दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक धारक इस प्रकार के शेयर के संबंध में किसी भी लाभांश, बोनस या अन्य पैसे के भुगतान के लिए प्रभावी पावती दे सकता है।

vi. अनुच्छेद 196 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित है:

सामान्य शक्ति

196 ए

अधिनियम में जहां भी यह प्रावधान किया गया है कि कम्पनी के पास अधिकार, विशेषाधिकार या प्राधिकार होगा या कम्पनी कोई भी लेन देन केवल तभी कर सकती है जब कम्पनी अपने अनच्छेदों द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, तब और उस मामले में यह अनुच्छेद कम्पनी को इस प्रकार के अधिकारों, एकाधिकारों या प्राधिकारों के लिए और ऐसे लेन देन करने के लिए प्राधिकृत और सशक्त बनाता है जिसकी अनुमति अधिनियम के द्वारा दी गई है, चाहे उसके लिए कोई विशिष्ट धारा का प्रावधान यहां न किया गया हो।

196 बी

इसके अलावा जहां अधिनियम या नियम बोर्ड को कम्पनी के लिए और कम्पनी की ओर से कार्य करने के लिए कोई भी शक्ति प्रदान करता है, तो बोर्ड को उसे प्रयोग करने का अधिकार होगा, चाहे उसका प्रावधान इस धारा में किया गया हो या नहीं।

196 सी

इस अधिनियम के प्रावधान इन अनुच्छेदों में कुछ भी विरोधाभासी होने के बावजूद भी प्रभावी रहेंगे। इन अनुच्छेदों में निहित कोई भी प्रावधान उस सीमा तक अमान्य होंगे जहां तक वे अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध हैं, और इन अनुच्छेदों में निहित अन्य प्रावधानों पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे।

196 डी

इन धाराओं के प्रावधानों को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन्स) नियमावली, 2012 और उसके संशोधनों, और भारत के प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा समय समय पर बनाए गए अन्य नियमों, विनियमों, सर्कुलरों, अधिसूचनाओं, आदेशों या निर्देशों के साथ पढ़ना अनिवार्य है (प्रत्येक उस सीमा तक जहां तक वह लागू होता है)।

V. धारा 161, 184, 187, 189 को हटाना प्रस्तावित है।

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए
एस. माधवन
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

दिनांक : नवम्बर 10 2016

जगह : मुंबई

टिप्पणी : हिन्दी पाठ में भिन्नता की स्थिति अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

Mumbai 400 051

The draft amendments proposed to Memorandum of Association and Articles of Association of National Stock Exchange of India Limited as given hereunder are published for criticism in accordance with the provisions of Section 23 of General Clauses Act, 1897. Any person having any observations on the proposed documents can send the same in writing to the undersigned at Exchange Plaza, Second Floor, 'B-2' wing, Plot C-1, Block G, Bandra – Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 within fifteen days from the date of this publication.. The observations received after the aforementioned date will not be considered when the aforementioned draft documents will be taken for consideration.

I. Proposed Changes in Section numbers, Schedule numbers or reference to the Companies Act, 1956 in light of the Companies Act, 2013.

Pursuant to change in the companies act, following references to sections from the Companies Act, 1956 are proposed to be changed to refer to the respective sections in the Companies Act, 2013 or reference to provisions of Companies Act, 2013:

Sr. No.	Article Number	Companies Act, 1956 reference	Companies Act, 2013 ("Act") reference
1.	Recital	Table A in the first schedule to the Companies Act, 1956	Table marked F in Schedule 1 to the Companies Act, 2013
2.	Article 1(i)	Section 150	Section 88
3.	Article 2(d)	Companies Act 1956	"the Act"
4.	Article 4	Sections 150, 151 and 152	Section 88
5.	Article 5	Sections 159 and 161	"..under the Act"
6.	Article 7	Sections 69, 70 and 75	Section 39
7.	Article 15	Section 77	Section 67
8.	Article 34	Section 205-A	".. subject to the Act"
9.	Article 45	Section 108 (1-A)	Section 56
10.	Article 47	Sub-section (1), (1-A) and (1-B) of Section 108	Section 56
11.	Article 68	Section 79	Section 53
12.	Article 68	Section 81	Section 62
13.	Article 73	Section 58A, 292, 293	".. provisions of the Act"
14.	Article 79	Section 143	".. provisions of Act"
15.	Article 105	Section 187	Section 113
16.	Article 112	Schedule IX	Section 105
17.	Article 152	Section 193	Section 118
18.	Article 157(19)	Section 293	Section 181

Sr. No.	Article Number	Companies Act, 1956 reference	Companies Act, 2013 ("Act") reference
19.	Article 157(23)	Sections 292 and 293	".. provisions of the Act"
20.	Article 157(24)	Sections 292 and 293	".. provisions of the Act"
21.	Article 166	Section 205	Section 123
22.	Article 169	Section 205	Section 123
23.	Article 174	Section 205A	".. subject to the Act"

II. Changes due to additions or deletion to the existing articles.

- i. The Article 1(a) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

"The Act" or "the said Act" shall mean The Companies Act, ~~1956~~ **2013** and includes **all rules made there under, clarifications, circulars, notifications and** every statutory modification or replacement thereof, for the time being in force, **and the relevant provisions of the Companies Act, 1956, to the extent such provisions have not been superseded by the Companies Act, 2013 or de-notified as the case may be**

- ii. The Article 6 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

The Company shall send to any Member, Debenture-holder or other person on request, a copy of the Register of Members, the Index of Members, the Register and Index of Debenture-holders or any part thereof required to be kept under the Act, on payment of such sum as may be prescribed by the Act. The copy shall be sent within a period of ~~ten days, exclusive of non-working days~~ **seven days, commencing on the day next after the day on which the requirement is received by the Company or such other time as may be prescribed under the Act or rules made thereunder.**

- iii. The Article 8 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

Subject to the provisions of the Act and these presents, the shares in the Capital of the Company for the time being (including any shares forming part of any increased capital of the Company) shall be under the control of the Directors who may allot or otherwise dispose off the same or any of them to such persons in such proportions and on such terms and conditions and either at a premium or at par or (subject to compliance with the provisions of Section ~~79-53~~ of the Act) at a discount and at such times as they may from time to time think fit and proper **with the sanction in the General Meeting to give to any person or persons the option or right to call for any Shares either at par or premium during such time and for such consideration as the Directors think fit, and may issue and allot Shares in the capital of the Company on payment in full or part of any property sold and transferred or for any services rendered to the Company in the conduct of its business and any Shares which may so be allotted may be issued as fully paid up Shares and if so issued, shall be deemed to be fully paid Shares.**

Provided that option or right to call shares shall not be given to any person except with the sanction of the Company in General Meeting.

- iv. The Article 18(1) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

The Company may at any time pay a commission to any person for subscribing or agreeing to subscribe (whether absolutely or conditionally) for any shares, debentures or debenture stock or any other security of the Company or for procuring or agreeing to procure subscriptions (whether absolute or conditional) for any share debentures or debenture stock or any other security of the Company but so that if the commission in respect of shares shall be paid or payable out of capital **the proceeds of the respective issue or profit or both**, the statutory conditions and requirements shall be observed and complied with and the amount ~~or rate of commission~~ shall not exceed the rates prescribed by the Act. The Commission may be paid or satisfied in cash or in shares, debenture or debenture stock of the Company.

- v. The Article 19 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- The certificate of title to ~~shares~~ **securities** shall be issued under the Seal of the Company **in presence of** and ~~shall~~ **bearing** the signature of two Directors or persons **duly authorized by the Board or its committee, as the case may be and the secretary acting on behalf of the Directors under a duly constituted Power of Attorney** or some other persons appointed by the Board for the purpose. **If the composition of the Board permits of it, at least one of the aforementioned two Directors shall be a person other than a managing director or a whole time director.** The certificate of such shares shall subject to provisions of Section ~~113~~ **56** of the Act be delivered in accordance with the procedure laid down in ~~Section 153 of~~ the Act within ~~three~~ **two** months after the allotment **in case of allotment of shares** or within ~~one~~ **two** months **from the date of receipt by the Company of the instrument of transfer in case of transfer or within one month from the date of receipt of intimation of transmission by the Company or in case of allotment of debentures within six months from the date of allotment such debentures, after the application for the registration of the transfer of such share** as the case may be. Provided always that notwithstanding anything contained in this Articles, the certificate of title to share may be executed and issued in accordance with such other provisions of the Act or Rules made thereunder, as may be in force for the time being and from time to time. **In respect of a Sshare or Sshares held jointly by several persons, the Company shall not be bound to issue more than one certificate and delivery of a certificate of Sshares to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holder. Notwithstanding the above, the certificates of securities, shall be issued in accordance with the provisions of the Act, the SCR Act, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, and any other applicable laws.**
- vi. The Article 20 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- Every Member shall be entitled without payment to one **or more certificates in marketable lots** for all the shares of each class or denomination registered in his name or, if the Directors so approve (upon paying such fee or fees or at the discretion of the Directors without payment of fees as the Directors may from time to time determine) to several certificates each for one or more shares of each class. Every certificate of shares shall contain such particulars and, shall be in such form as prescribed by **the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, as amended** ~~the Companies (Issue of certificates) Rules, 1960~~ or any other Rules in substitution or modification thereof. Where a Member has transferred a part of the shares comprised in his holding he shall be entitled to a certificate for the balance without charge.
- vii. The Article 21(1) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- A certificate may be renewed or a duplicate of a certificate may be issued **within the period prescribed under applicable law** if (a) such certificate(s) is proved to have been lost or destroyed **to the satisfaction of the Company and on execution of such indemnity as the Company deem adequate**, or (b) having been defaced or mutilated or torn **or worn out**, ~~is surrendered to the Company~~ or (c) has no further space on the back thereof for endorsement or transfer, **is produced and surrendered to the Company. Every certificate under this Article shall be issued on payment of fees if the Directors so decide, or on payment of such fees (not exceeding Rs. 50 for each certificate) as the Directors shall prescribe.**
- viii. The Article 21(2) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- The manner of issue or renewal of a certificate or issue of a duplicate thereof, the form of a certificate (origin or renewed) or of a duplicate thereof, the particulars to be entered in the Register of Members or in the Register or renewed or a duplicate certificates, the form of such Registers, the fee on payment of which the terms and conditions on which a certificate may be renewed or a duplicate thereof may be issued, shall be such as prescribed by the ~~Companies (Issue of Share Certificates) Rules, 1960 or any other Rules in substitution or modification thereof~~ **Act and rules made thereunder, rules or regulation or requirements of any recognised stock exchange, the SCR Act and or any other act or rules applicable in this behalf.**
- The provisions of the foregoing Articles relating to issue of certificates shall mutatis mutandis apply to issue of certificates for any other securities including Debentures (except where the Act otherwise requires).**

- ix. The Article 19A is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

Notwithstanding anything contained in these Articles, the Company shall be entitled to dematerialise its securities and to offer securities in a dematerialised form pursuant to the Depositories Act, 1996. In respect of the securities so dematerialised, the relevant SEBI circulars and directives besides the provisions of the Depositories Act, 1996 and the relevant regulations shall apply. **For securities dealt with in a depository, the Company shall intimate the details of allotment of securities to depository immediately on allotment of such securities.**

- x. The Article 27 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is made payable at any fixed time or by installments at fixed times, whether on account of the **nominal value** ~~amount of the share~~ or by way of premium, every such amount or installments shall be payable as if it were a call duly made by the Directors and of which due notice has been given and all the provisions herein contained in respect of calls shall relate to such amount or installments accordingly

- xi. The Article 28 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted)

If the sum payable in respect of any call or installment be not paid on or before the day appointed for payment thereof the holders for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made or the installment shall be due shall pay interest on the same at such rate as the Directors shall fix from time to time from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Directors may waive payments of such interest wholly or in part. **A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.**

- xii. The Article 30 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

The Directors may, if they think fit **(subject to the provisions of the Act) agree to and** receive from any Member willing to advance the same **the whole** ~~all~~ or any part of the moneys due upon the shares held by him beyond the sums actually called for, and upon the moneys so paid **or satisfied** in advance or so much thereof as from time to time exceeds the amount of the calls then made upon the shares in respect of which such advance has been made the Company may pay interest at such rate as the Member paying such sum in advance and the Directors agree upon and the Directors may at any time repay the amount so advanced upon giving to such Member one month's notice in writing; **provided that moneys paid in advance of calls on Shares may carry interest but shall not confer a right to dividend or to participate in profits.**

No Member paying any such sum in advance shall be entitled to voting rights in respect of the moneys so paid by him until the same would but for such payment become presently payable. The provisions of this Article shall mutatis mutandis apply to calls on Debentures issued by the Company.

- xiii. The Article 38 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode be deleted):

Any Member whose share have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to the company all calls, installments, interest, expenses and other monies owing upon or in respect of such shares at the time of the forfeiture together with interest thereon from the time of the forfeiture until payment, at such rates as may be prescribed by the Directors and the Directors may enforce the payment of the whole or a portion thereof if they think fit but shall not be under any obligation to do so. **Liability of such person shall cease if and when the Company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.**

- xiv. The Article 39 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

The Company shall have no lien on its fully paid shares. In the case of partly paid up shares/**debentures, registered in the name of each member (whether solely or jointly with another or others) and upon the proceeds of sale thereof**, the Company shall have a first and paramount lien only for all monies called or payable **(whether presently payable or not)** at a fixed time in respect of such shares/**debentures and no equitable interest in any share shall be created except upon the footing**

and condition that this Article will have fullest effect. Any such lien shall extend to all dividends, from time to time, **and bonus** declared in respect of such shares/ **debentures** subject to ~~Section 205 of~~ the Act. Unless otherwise agreed the registration of a transfer of shares/ **debentures** shall operate as a waiver of the Company's lien, if any, on such shares/ **debentures**. **Provided that the Board may at any time declare any Share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.**

- xv. The Article 48 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

Every instrument of transfer shall be presented to the Company duly stamped for registration **within a period of sixty days from the date of execution, or such lesser period as may be prescribed under the applicable law**, accompanied by the relative share certificates and such evidence as the Board may require to prove the title of the transferor, his right to transfer of shares and generally under and subject to such conditions and regulations as the Board shall from time to time, prescribe and every registered instrument of transfer shall remain in the custody of the Company until destroyed by order of the Board of Directors, subject to the provisions of law.

- xvi. The Article 51 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

Subject to the provisions of the Act, any person becoming entitled to shares in consequences of **death, lunacy, bankruptcy**, insolvency or liquidation of any Member, by any lawful means other than by a transfer in accordance with this Articles, may, **upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either (a) to be registered himself as holder of the share; or (b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made. The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency** ~~with the consent of the Board, which it shall not be under any obligation to give and, upon producing such evidence that he sustains the character in respect of which he proposes to act under this Article, or of his title as the Board thinks sufficient either be registered himself as the holder of the shares or elect to have some person nominated by him and approved by the Board of Directors registered as holder of such shares.~~

Provided nevertheless, that the person who shall elect to have his nominee registered shall testify the election by executing in favour of his nominee an instrument of transfer in accordance with the provisions herein contained, and until he does so, he shall not be freed from any liability in respect of the shares.

- xvii. The Article 52 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

No fee shall be charged for registration of transfer, transmission, probate, succession certificate and letters administration, certificate of death or marriage, power of attorney or similar other document. ~~No fees shall be payable to the Company in respect of the transfer or transmission of any shares in the Company~~

- xviii. The Article 54 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

The Board shall have power on giving at least seven days', **or such lesser period as may be prescribed under the applicable law**, previous notice, **in such manner as may be prescribed**, by advertisement **at least once in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district and having a wide circulation in the place where the** ~~in some newspaper circulating in the district in which the Registered Office of the Company is situated,~~ **in English language in an English newspaper circulating in that district and having wide circulation in the place where the Registered Office of the Company is situated and publish the notice on website as may be notified by the Central Government and on the website of the Company**, to close the Transfer Books, the Register of Member or Register of Debenture Holders at such time or times and for such period or periods not exceeding thirty days at a time and not exceeding in aggregate forty-five days, **or such lesser period as may be prescribed under the applicable law**, in each year as it may deem expedient.

- xix. The Article 55 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

Subject to the provisions of ~~the Act these Articles~~ **Section 111 of the Companies Act, 1956 the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)**

Regulations, 2015, as amended, and any other applicable law, the Board may, **at its absolute and uncontrolled discretion** refuse **with cause** whether in pursuance of any power of the Company under these Articles or otherwise to register **or acknowledge** the transfer of, or the transmission by operation of law of the right to, any shares, **whether fully paid or not**, or interest of a member therein, or debentures of the Company, **and the right of refusal, shall not be affected by the circumstances that the proposed transferee is already a member of the Company but in such cases**, and the Company shall within **thirty days** ~~two months~~ **or such lesser period as may be prescribed under the applicable law**, from the date on which the instrument of transfer, or the intimation of such transmission, as the case may be, was delivered to the Company, send notice of the refusal to the transferee and the transferor or to the person giving intimation of such transmission, as the case may be giving reasons for such refusal.

Provided that the registration of a transfer shall not be refused on the grounds of the transferor being either alone or jointly with any other person or persons indebted to the Company on any account whatsoever except where the Company has a lien on shares. **Transfer in whatever lot shall not be refused.**

- xx. The Article 58 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

Nothing in these presents shall prejudice the powers of the Company to refuse to register the transfer of any shares **subject to the provisions of the Act, these Articles and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.**

- xxi. The Article 64 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

The Directors with the sanction of a resolution of the Company in General Meeting may convert any paid-up shares into stock and may convert **all or** any stock into paid-up shares of any denomination. When any shares have been converted into stock, the several holders of such stock may thenceforth transfer their respective interests therein or any part of such interest in the same manner and subject to the same regulations as and subject to which fully paid-up shares in the Company's capital may be transferred or as near thereto as circumstances will admit.

- xxii. The Article 67 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted and proposed to be renumbered as Article 67(1)):

67. (1) Where at any time the Board or the Company, as the case may be, may, propose to increase the subscribed capital by the issue of further shares then such shares shall be offered, subject to the provisions of section 62 of the Act, and the rules made thereunder. ~~The new shares (resulting from an increase of capital as aforesaid) may, subject to the provisions of the Act and these presents, be issued or disposed of by the Company in the General Meeting or by the Directors under their powers in accordance with the provisions of Article 8 and 9 and following provisions:--~~

- xxiii. The Article 67(A)(i) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

- (A) (i) ~~Such new shares shall be offered~~ to the persons who at the date of the offer are holders of the equity shares of the Company in proportion as nearly as circumstances admit to the capital paid-up **share capital** on those **shares by sending a letter of offer subject to the conditions mentioned in (ii) to (iv) below at the date;**

- xxiv. The Article 67A(ii) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted and proposed to be renumbered as Article 67(1)A(ii)):

The offer aforesaid shall be made by notice specifying the number of shares offered and limiting a time not being less than fifteen **days and not exceeding thirty days** from the date of the offer, within which the offer if not accepted, ~~will~~ **shall** be deemed to have been declined;

- xxv. The Article 67A(iv) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted and proposed to be renumbered as Article 67(1)A(iv)):

After the expiry of time specified in the notice aforesaid or on receipt of earlier intimation from the person to whom such notice is given that the person declines to accept the shares offered, the Board

of Directors may dispose of them in such manner **which is not disadvantageous to the Shareholders and the Company** ~~as they think most beneficial to the Company;~~

- xxvi. The Article 67(B) are proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted and proposed to be renumbered as Article 67(2)):

Nothing in sub-clause (iii) of Clause **(1)(A)** shall be deemed:-

- (i) To extend the time within which the offer should be accepted; or
- (ii) To authorize any person to exercise the right of renunciation for a second time on the ground that the person in whose favour the renunciation was first made has declined to take the shares compromised in the renunciation.

- xxvii. The Article 71(a) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

The Company may in the General Meeting by Ordinary Resolution alter the conditions of its Memorandum as follows:-

Consolidate and divide all or any of its ~~shares~~ **share capital** into shares of larger amount than its existing shares; **Provided that no consolidation and division which results in changes in the voting percentage of shareholders shall take effect unless it is approved by the National Company Law Tribunal on an application made in the prescribed manner.**

- xxviii. The Article 76 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

any bonds, debentures, debenture stocks or other **debt** securities issued at a discount, premium or ~~otherwise~~ **otherwise and may be issued on condition that they shall be convertible into shares of any denomination and with** any special privilege as to redemption, surrender, drawing, allotment of shares, attending at General Meetings of the Company, ~~appointed~~ **appointment** of Directors and otherwise **Debenture with the right to conversion into or allotment of shares shall be issued only with the consent of the Company in the General Meeting by a special resolution.**

- xxix. The Article 80(b) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

Every Annual General Meeting shall be called for a time during business hours **i.e. between 9 a.m. to 6 p.m.** on a day that is not a ~~public~~ **national** holiday, and shall be held either at the Registered Office of the Company or at some other place within the city where the registered office is situated and the notices calling the meeting shall specify it as Annual General Meeting.

- xxx. The Article 82(f) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

If the Board does not, within twenty one days from the date of deposit of a valid requisition in regard to any matters, proceed duly to call a meeting for the consideration of those matters on a day not later than forty five days from the deposit of the requisition, the meeting may be called **and held by** ~~such of~~ the requisitionists as represent either majority in value of the paid-up share capital held by all of them or not less than one-tenth of such of the paid-up share capital of the Company as is referred to in Clause (d) whichever is less, **within a period of three months from the date of requisition.** However, the purpose of this Clause the Board shall, in the case of a meeting at which a resolution is to be proposed as a Special Resolution give, such notice thereof as is required by the Act;

- xxxi. The Article 83(b)) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

A General Meeting may be called after giving shorter notice than that specified in Clause (a) if consent is accorded thereto **in writing or by electronic mode by not less than ninety-five per cent of the members entitled to vote at such meeting;**

- (i) ~~in the case of an Annual General Meeting by all the Members entitled to vote thereat, and~~
- (ii)(i) ~~in the case of any other meeting by Members of the Company holding not less than ninety five per cent of such part of the paid up share capital of the Company as gives them a right to vote at the meeting.~~

Provided that where any Members of the Company are entitled to vote only on some resolution to be moved at a meeting and not on the others, those members shall be taken into account for the purposes of this sub clauses in respect of the former resolution or resolutions and not in respect of the latter.

xxxii. The Article 84(b) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

Notice of every meeting of the Company shall be given

(i) to every Member of the Company, **legal representative of any deceased member or the assignee of an insolvent member** in any manner authorised by Section 53-20 of the Act;

(ii) **to every director of the Company** to the persons entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a Member by sending it through the post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representative of the deceased, or assignees of the insolvent or by any like description at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons claiming to be so entitled, or until such an address has been supplied, by giving the notice in any manner in which it might have been given if the death or insolvency had not occurred; and

(iii) to the Auditor or Auditors for the time being of the Company in any manner authorised by Section 53-20 of the Act in the case of any Member or Members of the Company;

xxxiii. The Article 85(a)(i) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

In the case of an Annual General meeting all business to be transacted at the meeting shall be deemed special, with the exception of business relating to :

the consideration of **financial statements** accounts, Balance sheet and reports of the Board of Directors and Auditors;

xxxiv. The Article 85(c) is proposed to be amended as given here under (words in bold be included and words in strike through mode be deleted):

Where any items of business to be transacted at the meeting are deemed to be special as aforesaid, there shall be annexed to the notice of meeting a statement setting out all material facts concerning each such item of business, including in particular the nature of the concern or interest, if any, therein, of every Director, and the Manager, if any, **every other key managerial personnel and relatives of such Director, Manager and the key managerial personnel.**

Provided that where any item of Special business as aforesaid to be transacted at a meeting of the Company relates to, or affects any other company, the extent of shareholding interest in that other company of every Director, and the manager, if any, **and every other key managerial personnel** of the Company shall also be set out in the statement if the extent of such shareholding interest is not less than ~~twenty~~ **two** percent of the paid-up capital of that other Company.

xxxv. The Article 87 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

(1) Whereby any provisions contained in the Act or in these presents, Special Notice is required of any resolution, notice of the intention to move the resolution shall be given to the Company **by such number of members as prescribed under the Act, not earlier than three months but at least** ~~not less than~~ fourteen days before the meeting at which it is to be moved, exclusive of the day on which the notice is served or deemed to be served and the day of the meeting.

(2) The Company shall, immediately after the notice of the intention to move any such resolution has been received by it, give its members notice of the resolution in the same manner as it gives notice of the meeting, or if that is not practicable, shall give them notice thereof, either by advertisement in a newspaper having an appropriate circulation **in the manner prescribed under the Act** or in any other mode allowed by these presents **and such notice shall also be posted on the website**, not less than seven days before the meeting.

xxxvi. The Article 88 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

Subject to the provisions of Section 103 of the Act, five ~~Five~~ Members personally present shall be a quorum for General Meeting and no business shall be transacted at any general meeting unless the requisite quorum be present at the commencement of the business.

- xxxvii. The Article 91 are proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- If within half an hour after the time appointed for the holding of a General Meeting a quorum be not present the meeting if commenced on the requisition of shareholders shall be dissolved and in any other case shall stand adjourned to the same day in the next week; at the same time and place or to such other day and at such time and places as the Directors may determine. If at such adjourned meeting also a quorum be not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting the Members present shall be a quorum and may transact the business for which the meeting was called. **However, in case of an adjourned meeting or of a change of day, time or place of meeting, the Company shall give not less than three days notice to the members either individually or by publishing an advertisement in the newspaper in the manner as prescribed under the Act.**
- xxxviii. The Article 93 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- At any General Meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands unless a poll is (before or on the declaration of the result on the show of hands) demanded in the manner hereinafter mentioned **or the voting is carried out electronically**, and unless a poll is so demanded, a declaration by the Chairman that a resolution has, on a show of hands, been carried or carried unanimously or by a particular majority, or lost and an entry to that effect in the book of the proceedings of the Company shall conclusive evidence of the fact or against such resolution.
- xxxix. The Article 94(a) (ii) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- on which an aggregate sum of not less than ~~fifty thousand~~ **five lakh** rupees has been paid-up.
- xl. The Article 97(a) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutinizers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him **in the manner as prescribed under the Act**;
- xli. The Article 103 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- Any Member shall be entitled to be furnished within seven **working** days after he had made a request in that behalf to the Company with copy of any minutes referred to above at such charges as may be prescribed by the Act
- xl.ii. The Article 116A is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles, directives issued by SEBI and/ or provided in the Rules from time to time with regard to composition of the Board, general requirements related to manner of appointment of directors, chief executive, code of conduct and other incidental and consequential matters relating to governance of the Company **including certain provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent applicable**, shall be complied with.
- xl.iii. The Article 118(AA) is proposed to be amended as given here under words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- Securities and Exchange Board of India (SEBI) may from time to time, generally after taking into consideration the names of the persons forwarded by the Board of Directors of the Company nominate on the Board of Directors of the Company not more than three persons referred to as "Public Interest Directors" **who shall be 'independent directors' as per the provisions of the Act** from amongst the persons of integrity having necessary professional competence and experience in the areas related to securities markets. SEBI shall however, have the right to nominate persons, whose names have not been forwarded by the Board of Directors of the Company. However, SEBI may at any time appoint more than three Public Interest Directors so that the total number of Directors nominated under Article 118A & 118AA may not exceed the total number of directors representing shareholders.
- xliv. The Article 120 is proposed to be amended as given here under words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

- (i) Subject to Section ~~113-161~~ of the Act, the Board of Directors may appoint an Alternate Director to act for a Director (hereinafter in this Article called "the original Director") at his suggestion or otherwise, during his absence for a period of not less than three months from ~~India, the State~~ in which meetings of the Board are ordinarily held.
 - (ii) An alternate Director appointed under clause (a) shall not hold office for a period longer than permissible to the original Director in whose place he has been appointed and shall vacate office if and when the original Director returns to ~~the state in which meetings of the Board are ordinarily held~~ **India**.
 - (iii) If the term of office of the original Director is determined before he so returns to ~~the State aforesaid~~ **India** any provision for the automatic reappointment of the retiring Directors in default of another appointment shall apply to the original and not to the Alternate Director.
- xlv. The Article 127(1) be amended as given here under words in bold be included and words in strike through mode be deleted:

Subject to the provision of Section ~~283(2)~~ **164** of the Act, the office of a Director shall become vacant if:

- (a) he is ~~found to be of~~ unsound mind **and stands so declared** by a Court of competent jurisdiction;
 - (b) he **has applied** ~~applies~~ to be adjudicated an insolvent **and his application is pending**; ~~or~~
 - (c) **He is an undischarged insolvent**; ~~he is adjudicated an insolvent; or~~
 - (d) he is convicted by a court of any offence, **whether** involving moral turpitude **or otherwise**; and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months **and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence**;
 - (e) **an order disqualifying him for appointment as a director has been passed by a court or Tribunal and the order is in force**;
 - (f) he ~~fails to pay~~ **has not paid** any calls in respect of shares **of the Company** held by him, **whether** alone or jointly with others, ~~and within~~ six months **has elapsed** from the last date fixed for the payment of such calls ~~made unless the Central Government has, by notification in the official Gazette, removed the disqualification incurred by such failure~~; ~~or~~
 - (g) **he has been convicted of the offence dealing with related party transactions under Section 188 of the Act at any time during the last preceding five years**; **or**
 - (h) **he has not complied with sub-section (3) of section 152 of the Act**.
 - ~~(e) he absents himself from three consecutive meeting of the Directors or from all meetings of the Directors for continuous period of three months whichever is the longer without leave of absence from the Board of Directors; or~~
 - ~~(f) he (whether by himself or by any person for his benefit or on his account), or any firm in which he is a partner or any private company of which he is a Director accepts a loan or guarantee or security for a loan from the Company in contravention of Section 295 of the Act; or he acts in contravention of Section 299 of the Act; and~~
 - ~~(g) he becomes disqualified by an order of the court under Section 203 of the Act; or~~
 - ~~(h) he is removed in pursuance of Section 284 by an Ordinary Resolution of the Company before the expiry of its period of office; or~~
 - ~~(i) he resigns from office by notice in writing addressed to the Company or to the Directors; or~~
 - ~~(j) he, his relative or partner or any firm in which he or his relative is a partner or any private company of which he is a Director or Member holds any office of profit under the Company or any subsidiary hereof in contravention of Section 314 of the Act; or~~
 - ~~having being appointed a Director by virtue of his holding any office or other employment in the Company, he ceases to hold such office or other employment in the Company.~~
- xlvi. The Article 127(2) be amended as given here under words in bold be included and words in strike through mode be deleted:
- Notwithstanding anything contained in clauses (~~ed~~), (~~de~~) and (**ig**) of sub-article (I), the disqualification referred to in those clauses shall not take effect:
- (a) For thirty days from the date of ~~adjudication or sentence or order~~ **conviction or order of disqualification**;

- (b) Where any appeal or petition is preferred within ~~the~~ thirty days **as aforesaid** against the ~~adjudication, sentence or~~ conviction resulting in the sentence or order. Until the expiry of seven days from the date on which such appeal or petitions disposed of; or

Where any further appeal or petition is preferred against order or sentence within seven days, until such further appeal or petition is disposed off~~Where within the seven days aforesaid any further appeal or petition is preferred in respect of the adjudication, sentence, conviction or order and the appeal of petition, if allowed, would result in the removal of the disqualification, until such further appeal or petition is disposed of.~~

- xlvii. The Article 137(1) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

No person, not being a retiring Director, shall be eligible for election to the office of Director at any General Meeting, unless he or some other Member intending to propose him has at least fourteen clear days before the meeting, left at the office a notice in writing under his hand signifying his candidature for the office of Director or the intention of such Member to propose him, as a candidate for that office along with a deposit of ~~five hundred~~ **one lakh** rupees which shall be refunded to such person or as the case may be to such member, if the person succeeds in getting elected as a Director.

- xlvi. The Article 137(2) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

The Company shall inform its Members of the candidature of a person for the office of Director or the intention of a Member to propose such person as a candidate for that office for serving individual notices on the Members not less than seven days before the Meeting. Provided that it shall not be necessary for the Company to serve individual notices upon the Members as aforesaid if the Company advertises such candidature or intention not less than seven days before the Meeting, in at least two newspapers circulating in the place where the Registered Office of the Company is located, of which one is published in the English language and the other in the ~~regional~~ **vernacular** language of that place.

- xlix. The Article 140 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

The **Board of** Directors may meet ~~together~~ for **conduct the dispatch** of business, adjourn and otherwise regulate their meetings and proceedings as they think fit provided however that ~~a meeting of the Board there shall be held at least once in every three months and a minimum of at least~~ four such meetings of the Board ~~shall be held in~~ every year **in such a manner that not more than 120 (one hundred and twenty) days shall intervene between two consecutive meetings of the Board.**

- i. The Article 142 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

Notice of every meeting of the Board of the Company shall be given in writing to every Director ~~for the time being in India and~~ at his **address registered with the Company by giving not less than seven days notice** ~~usual address in India to every other Director~~

- ii. The Article 145 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

The quorum for meeting of the Board of Directors of the Company shall be one-third of its total strength (any fraction contained in that one-third being rounded off as one) or two Directors whichever is higher **and the participation of the directors by video conferencing or by other audio visual means shall also be counted for the purposes of quorum** provided that when at any meeting the number of interested Directors exceeds or is equal to two-third of the total strength, the Directors who are not interested, present at the meeting being not less than two shall be the quorum during such time and provided further that the aforesaid proviso shall not be applicable when any contract or arrangement is entered in to by or on behalf of the company with a Director or with any firm of which a Director is Member or with any private company of which a Director or member for

- (a) The underwriting or subscription of shares or debentures of the company; or
(b) the purchase or sale of shares or debentures of any other Company; or
(c) a loan by the Company

For the purpose of this Article :-

- (i) "total strength" means the total strength of the Directors of the Company as determined in pursuance of the Act after deducting there from the number of the Directors, if any, whose place may be vacant at the time.
- (ii) "Interested Directors" **shall mean a director within the meaning of Section 184(2) for the purposes of this Article**~~means any Director whose presence cannot by reason of Section 300 of the Act count for the purpose of forming a quorum at a meeting of the Board at the time of the discussion or vote on any matter.~~
- lii. The Article 146(a) is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then unless the Directors present at each meeting otherwise decide, the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week at the same time and place or if that day is a ~~public~~**national** holiday till the next succeeding day which is not a ~~public~~**national** holiday at the same time and place.
- liii. The Article 150 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- No resolution shall be deemed to have been duly passed by the Board or by a Committee thereof by circulation unless the resolution has been circulated in draft together with the necessary papers, if any, to all the Directors or to all the Members of the Committee then in India (not being less in number than the quorum fixed for a meeting of a Board or Committee as the case may be) and to all other Directors or Members at their usual address in India and has been approved by such of the directors as are then in India or by majority of such of them as are entitled to vote on the resolution. **Where not less than one-third of the total number of directors of the Company for the time being require that any resolution under circulation must be decided at a meeting, the chairperson shall put the resolution to be decided at a meeting of the Board.**
- liv. The Article 153 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- The Directors shall comply with the provisions of Section ~~159, 295, 297, 299, 303, 305, 307 and 308~~**92, 170, 184, 185, 188** of the Act **which pertain to annual return, register of directors and key managerial personnel and their shareholding, disclosure of interest by director, loan to directors, etc, and Related party transactions,** to the extent applicable.
- lv. The Article 155 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- The Board shall exercise the ~~following~~**powers in respect of the matters covered in the Section 179(3) of the Act and the rules made thereunder, on behalf of the Company, and it shall do so** only by means of resolution passed at its Meetings.
- ~~(i) the powers to make a calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares;~~
- ~~(ii) the power to issue debentures;~~
- ~~(iii) the power to borrow moneys otherwise than by debentures;~~
- ~~(iv) the power to invest the funds of the Company ; and~~
- ~~(v) the powers to make loans~~
- Provided that the Board may, by a resolution passed at a meeting delegate to any Committee of Directors, the Managing Director, the Manager or any other principal officer of the Company or in the case of a branch office, the principal officer of the branch office, the powers specified in ~~clauses (c) (d) and (e) to the extent specified in sub-section (2) (3) and (4) respectively of Section 292 of Section 179(3)(d) to (f) of the Act~~ on such conditions as the Board may prescribe.
- lvi. The Article 156 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- The Board shall **exercise the following powers not except only** with the consent of the Company in the General Meetings **by a special resolution:-**
- (a) **To** sell, lease or otherwise dispose of the whole or substantially the whole of the undertaking of the Company, or where the Company owns more than one undertaking of the whole, or substantially the whole of any such undertaking

- (b) **To** remit or give time for the re-payment of any debt due **from by** a Director
- (c) **To** invest, otherwise than in trust securities, the **amount of** compensation received by the Company **as a result of any merger or amalgamation** ~~in respect of the compulsory acquisition of any such undertaking as is referred to in clause (a), or of any premises or properties used for any such undertaking and without which it cannot be carried on or can be carried on only with difficulty or only after a considerable time.~~
- (d) **To Borrow** borrow moneys where the moneys to be borrowed together with the money already borrowed by the Company (apart from temporary loans obtained from the Company's bankers in the ordinary course of business) will exceed the aggregate of the paid up capital of the Company and its free reserves, ~~that it to say reserves not set apart for any specific purpose.~~
- (e) Contribute to charitable and other funds ~~not directly relating to the business of the Company or the welfare of its employees, in case~~ any amounts **the** aggregate of which all, in any financial year, exceed ~~Rs. 50,000/- or~~ five percent of its average net profits ~~as determined in accordance with provisions of Section 198 349 and 350 of the Act during the for~~ three ~~financial years~~ immediately preceding ~~whichever is greater~~ financial year.

lvii. The Article 160 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

The Board shall provide a Common Seal for the purpose of the Company and shall have power from time to time to destroy the same and substitute a new seal in lieu thereof, and the Board shall provide for the safe custody of the Seal for the time being and the Seal shall never be used except by or under the authority of the Board or a Committee of Directors, **except and** in the presence of one Director **or of the secretary** or any other person who may have be authorised in this regard at the least, who shall sign every instrument to which the Seal is affixed provided that certificates of shares may be under the signatures of such persons as provided by the Companies (issue of share certificates) Rules in force from time to time. Save as otherwise expressly provided by the Act a document or proceeding, requiring authentication by the Company may be signed by a Director, or the Secretary or any other officer authorised in that behalf by the Board and need not be under its Seal.

lviii. The Article 176 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

The Board shall cause to be kept in accordance with Section 128 of the Act proper books of account (with respect to: ~~The Board shall cause true accounts to be kept of~~ (a) all sums of money received, expended by the Company and the matters in respect of which such receipt and expenditure take place (b) all sales and purchases of goods **and services** by the Company and (c) the assets credits and liabilities of the Company) ~~and~~ generally of all its commercial financial and other affairs, transaction and engagement and of all other matters, necessary for showing the true financial state and condition of the Company, and the accounts shall be kept in English and in the manner provided in Section ~~209(3)~~ **128** of the Act and the books of accounts shall be kept at the Registered Office or such place or places in India subject to compliance of the provisions of the ~~Companies Act, 1956~~ as the Board think fit **(where such a decision is taken, the Company shall, within seven days thereof, file with the Registrar a notice in writing giving the full address of that other place)** and shall be open to inspection by the Directors during business hours.

lix. The Article 178 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

The title of the clause "statement of Accounts and report to be furnished to General Meeting, Balance Sheet to be served on every member" be substituted with "Financial Statements and reports to be furnished at every Annual General Meeting"

At every Annual General Meeting of the Company, the Board of the Company shall lay before such meeting the financial statements for the financial year and ~~Once at least in every calendar year the Board shall place before the Company in the Annual General Meeting a Profit and Loss Account for the period since the preceding account and a Balance Sheet containing a summary of the property and liabilities of the Company made up to a date not more than 6 months before the meeting or in case where an extension has been granted for holding the meeting up to such extended time and every such Balance sheet shall~~ as required by Section ~~217~~ **134** of the Act, be **accompanied** ~~accompanied~~ by a Report (to be attached hereto) of the Directors as to the state and condition of the Company ~~and as to the amount (if any) set aside by them for the Reserve Fund, General Reserve or Reserve Account shown specifically in the Balance Sheet or to be shown specifically in a subsequent Balance Sheet.~~

- ix. The Article 179 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- The title of the clause "Form and contains of Balance Sheet and profit and Loss Account" be substituted with "Form and contains of Financial Statements.
- Every **financial statements** ~~Balance Sheet and Profit and Loss Account~~ of the Company shall give a true and fair view of the state of affairs of the Company and shall, subject to the provisions of Section ~~211~~ **129 and 133** of the Act, be in the Forms set out in Part ~~I~~ and II respectively of Schedule ~~VI~~ **III** of the Act, or as near thereto as circumstances admit
- ixi. The Article 180 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- The title of the clause "Authentication of Balance Sheet and other documents; copies thereof to be sent to Members" be substituted to "Authentication of Financial Statements and other documents; copies thereof to be sent to Members".
- (i) The ~~Balance Sheet and the Profit and Loss Account~~ **financial statements of the Company** shall be signed **by the chairperson of the company where he is authorised by the Board or by two Directors out of which one shall be Managing Director and the Chief Executive Officer, if he is a director in the company, the Chief Financial Officer and the company secretary of the company, wherever they are appointed** ~~by the Manager or Secretary if any, and by not less than two Directors of the Company one of whom shall be the Managing Director, if appointed or when only one Director is for the time being in India, by such Director and Manager or Secretary. But in the latter case, the Director concerned shall attach to the Balance Sheet a statement signed by him explaining the reasons therefor.~~ The ~~Balance Sheet and the Profit and Loss Account~~ **financial statements** shall be approved by the Board before they are signed on behalf of the Board in accordance with the provisions of this Article and before they are submitted to the Auditor for their report thereon. The Auditor's report shall be attached to the **financial statements** ~~Balance Sheet and the Profit and Loss Account~~ or there shall be inserted at the foot of the **financial statements** ~~Balance Sheet and Profit and Loss Account~~ a reference to the Report.
- (ii) A copy of such **financial statements** ~~Balance Sheet and the Profit and Loss Account~~ of audited together with a copy of the Auditor's Report shall at least twenty one days before the meeting at which the same are to be laid before the Members of the Company, subject to the provisions of Section ~~219~~ **101** of the Act, be sent to every Member of the Company, to every trustee for the holders of any debentures issued by the Company, whether such member or trustee is or is not entitled to notices of General Meeting of the Company to be sent to him and to all other persons other than such members or trustees, being persons so entitled and a copy of the same shall be made available at the Office for inspection by the Members of the Company during a period of at least twenty one days before that meeting.
- lxii. The Article 181 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- Title - Copies of **financial statements** ~~Balance Sheet and Profit and Loss Account~~ and Auditor's Report to be filed
- After the **financial statements** ~~Balance Sheet and Profit and Loss Account~~ have been laid before the Company at a General Meeting, three copies thereof signed by the Manager or Secretary or as required by Section ~~220~~ **137** of the Act shall together with the requisite Returns in accordance with the requirements of Section ~~92~~ **159 and 161** of the Act be filed with the Registrar of Companies within the time specified in Section ~~220~~ **137** of the Act
- lxiii. The Article 182 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- Once at least in every year the accounts of the Company shall be balanced and audited and the correctness of the ~~Profit and Loss Account and Balance Sheet~~ **financial statements** ascertained by one or more Auditor or Auditors.
- lxiv. The Article 185 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):
- (1) Every Auditor of the Company shall have a right of access at all the times to the books and accounts and vouchers of the Company and shall be entitled to require from the Directors and officers of the Company, such information and explanations as may be necessary for the performance of the duties of the Auditors

and the Auditors ~~shall make report to the Shareholders on the accounts examined by them, and on every Balance Sheet and Profit and Loss Account and every other document declared by the Act to be part of or annexed to the Balance Sheet or Profit and Loss Account, which are laid before the Company in General Meeting during their tenure of office, and the report shall state whether in their opinion and to the best of their information and according to the explanations given to them, the said Accounts give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view (i) in the case of the Balance Sheet of the state of the Company's affairs as at the end of its financial year and (ii) in the case of the Profit and Loss Account of the profit and loss for its financial year.~~ **shall make report to the Shareholders on the accounts examined by them and on every financial statements which are required by and under the Act are laid before the Company in General Meeting, and the report shall state whether in their opinion and to the best of their information and knowledge, the said Accounts, give a true and fair view the state of the Company's affairs as at the end of its financial year and profit and loss and cash flow for the year and the such other matters as may be prescribed.**

- (2) **The Auditors Report shall also state the matters prescribed under the Section 143 of the Act.** ~~The Auditors Report shall also state (a) whether they had obtained all the information and explanations which to the best of their knowledge and belief were necessary for the purpose of their audit (b) whether, in their opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company for so far as appears from the examination of those books and proper returns adequate for the purpose of their audit have been received from the branches not visited by them and (c) whether the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by the Report are in agreement with the books of account and Returns where any of the matters referred to in items (i) and (ii) or (a) (b) and (c) aforementioned is answered in the negative or with a qualification the Auditors' Report shall state the reason for the same.~~

- ~~(3) The Auditors' Report shall be attached to the Balance Sheet and Profit and Loss Account or set out at the foot thereof and such Report shall be read before the Company in General Meeting and shall be open to inspection by any Member of the Company~~

lxv. The Article 186 are proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

All notices of and other communications ~~relating to any General Meeting of~~ the Company which ~~any Member of the Company~~ is entitled to have sent to him shall also be forwarded to the Auditors of the Company and the Auditors shall be entitled to attend **either by himself or through his authorized representative, who shall also be qualified to be an auditor**, and to be heard at any General Meeting which they attend or any part of the business which concerns them as Auditors.

lxvi. The Article 188 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

- (1) **A document (which includes any summons, notice, requisition, order, declaration, form and register) may be served on any member by sending it to him by post or by registered post or by speed post or by courier or by delivering at his office or address, or by electronic mode or any other modes as prescribed under the Act.**

- (2) ~~Where a document (which shall for this purpose be deemed to include any summons, requisition, process, order judgement or any other documents in relation to the winding up of the company) or a notice is sent by post, the service of such notice shall be deemed to be effected by properly addressing, pre-paying and posting a letter containing the notice provided that where a Member has intimated to the company in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post, with or without acknowledgement due, and has deposited with the company a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the Member, and unless the contrary is proved, s~~ Such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a Meeting at the expiry of forty eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post. **The Member may request for delivery of any document through a particular mode, for which he shall pay such fees as may be determined in accordance with the Act.**

lxvii. The Article 190 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

Notice of every General Meeting shall be given in same manner hereinbefore authorised to (a) every member of the company (including bearers of share warrants), (b) every person entitled to a share in

consequence of the death or insolvency of a Member who but for his death or insolvency would be entitled to receive notice of the meeting ~~and also~~ to (c) the Auditor or Auditors of the company **and also to (d) every Director of the Company**

lxviii. The Article 195 is proposed to be amended as given here under (words in bold are proposed to be included and words in strike through mode are proposed to be deleted):

- (1) Subject to the provisions of ~~Section 201 of~~ the Act, the Board of Directors, Managing Director, Managers, Secretary and other officers or other employees for the time being of the company, Auditor and the Trustees, if any, for the time being acting in relation to any of the affairs of the company and every one of them and every one of their heirs, executors and administrators shall be indemnified and secured harmless out of the assets and profits of the company from and against all actions, costs, charges, losses, damages and expenses which they or any of them, their heirs, executors or administrators shall or may incur or sustain by or reason of any act done, concurred in or omitted in or about the execution of their duty, or supposed duty in their respective offices or trusts except such, if any, as they shall incur or sustain through or by their own willful neglect or default respectively.
- (2) Save and except so far the provisions of this Article shall be avoided by ~~section 201 of~~ the Act, none of them shall be answerable for the acts, receipts, neglects or defaults of the other or other of them, or for joining in any receipt for the sake of conformity, or for insolvency of any bankers or other persons with whom any money's or effects belonging to the company shall or may be lodged or deposited for safe custody or for the insufficiency or deficiency of any security upon which any money's belonging to the company shall be placed out or invested or invested or for any other loss, misfortune or damage which may happen in the execution of their respective offices or trusts or in relation thereto, except when the same shall happen by or through their own willful neglect or default respectively.
- (3) Subject to the provisions of ~~section 201 of~~ the Act, no Director or other officer of the company shall be liable for the acts, receipts, neglect or default of any other Director or officer of the company or for joining in any receipt or other act for conformity for any loss or expenses happening to the company through the insufficiency or deficiency to title to any property acquired by the order of the Director for or on behalf of the company or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the moneys of the company shall be invested or for any loss damage arising from the bankruptcy, insolvency or tortuous act or any person with whom any moneys, securities or effects shall be deposited or for any loss occasioned by any error of judgment or oversight on his part, or for any other loss, or damage whatsoever, which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto unless the same happens through his own negligence or dishonesty.
- (4) **Subject to the provisions of the Act (including Section 197 read with Section 196 and Schedule V) and rules made thereunder, if the Company has obtained an insurance on behalf of its Managing Director, Whole-Time Director, Manager, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer or Company Secretary for indemnifying any of them against any liability in respect of any negligence, default, misfeasance, breach of duty or breach of trust for which they may be guilty in relation to the treated as part of the remuneration payable to any such personnel. Provided that if such person is proved to be guilty, the premium paid on such insurance shall be treated as part of the remuneration.**

III. Changes pursuant to substitution of articles.

- i. The existing Article 17 is proposed to be substituted with the following article:

"Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder."

- ii. The existing Article 138(a) is proposed to be substituted with the following article:

"The Company may, subject to the Article 118A and 118AA, the provisions of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 or any modification thereto and the provisions of Section 169(1) of the Act, by ordinary resolution of which special notice according to Section 169(2) of the Act has been given remove any Director before the expiry of his period of office and may by ordinary resolution of which special notice has been given, appoint another person instead of the removed Director. A Director so appointed shall hold office until the date up to which his predecessor

would have held office if he had not been so removed. If the vacancy created by the removal of a Director under the provisions of this Article is not so filled by the meeting at which he is removed, the Board may at any time thereafter fill such vacancy under the provisions of these Articles."

- iii. The existing Article 170 is proposed to be substituted with the following article:

"Right to Dividend pending registration of transfer of

Where any instrument of transfer of shares has been delivered to the Company for registration and the transfer of such shares has not been registered by the Company, it shall, notwithstanding anything contained in these Articles transfer the dividend in relation to such shares to the Unpaid Dividend Account unless the Company is authorised by the registered holder of such shares in writing to pay such dividend to the transferee specified in such instrument of transfer."

- iv. The existing Article 172 is proposed to be substituted with the following article:

"Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of Shares may be paid by electronic mode or by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of Members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct."

- v. The existing Article 173 is proposed to be substituted with the following article:

"No dividend shall bear interest against the Company.

- (1) *Where the Company has declared a dividend but which has not been paid or the dividend warrant in respect thereof has not been posted within 30 (thirty) days from the date of declaration to any Shareholder entitled to the payment of the dividend, the Company shall within 7 (seven) days from the date of expiry of the said period of 30 (thirty) days, open a special account in that behalf in any scheduled bank called "Unpaid dividend Account of National Stock Exchange of India Limited" and transfer to the said account, the total amount of dividend which remains unpaid or in relation to which no dividend warrant has been posted.*
- (2) *Subject to the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013, any money transferred to the Unpaid dividend Account of the Company which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (the "Fund").*
- (3) *No unclaimed or unpaid dividend shall be forfeited by the Board before the claim becomes barred by law provided that a recognized stock exchange may provisionally admit to dealing the securities of a company which undertakes to amend articles of association at its next General Meeting so as to fulfill the foregoing requirements and agrees to act in the meantime strictly in accordance with the provisions of this clause. All unclaimed and unpaid dividends shall be dealt with as per Section 125 of the Companies Act, 2013 and the rules made there under.*
- (4) *The Company shall not be responsible for the loss of any cheque, dividend warrant or postal order sent by post in respect of dividends, whether by request or otherwise, at the registered address or the address communicated to the office before hand by the Member or for any dividend lost to the Member or person entitled thereto by the forged endorsement of any cheque or warrant or the fraudulent recovery thereof by any other means."*

- vi. The existing Article 175 is proposed to be substituted with the following article:

"(A) The Company in general meeting may, upon the recommendation of the Board, resolve—

- (i) *that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts, or to the credit of the profit and loss account, or otherwise available for distribution; and*
 - (ii) *that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (B) below amongst the Members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions.*
- (B) *The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (3) below, either in or towards:*
- (a) *paying up any amounts for the time being unpaid on any Shares held by such Members respectively;*

- (b) *paying up in full, unissued Shares or other securities of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such Members in the proportions aforesaid;*
- (c) *partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (B);*
- (d) *issuing fully paid-up bonus Shares; and*
- (e) *A securities premium account and a capital redemption reserve account or any other permissible reserve account may, for the purposes of these Articles, be applied in the paying up of unissued Shares to be issued to Members as fully paid bonus Share.*
- (C) *A securities premium account and a capital redemption reserve account or any other permissible reserve account may, for the purposes of this Article, be applied in the paying up of unissued Shares to be issued to Members of the Company as fully paid bonus Shares;”*

vii. The existing Article 183 is proposed to be substituted with the following article:

“Appointment, and Qualifications and remuneration of Auditors

Appointment, re-appointment, rotation, removal, resignation, eligibility, qualification, disqualification, remuneration, powers and duties etc. of the Statutory Auditors shall be in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder”

IV. Following Articles are proposed to be added to the existing articles.

- i. The Article 67(1)(B) is proposed to be inserted after Article 67(1)(A) as follows:
 - (B) subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 or any modification thereto, to employees under any scheme of employees' stock option subject to special resolution passed by the Company and subject to the Rules and such other conditions, as may be prescribed under applicable law; or
- ii. The Article 67(1)(C) is proposed to be inserted after the above inserted Article 67(1)(B) as follows:
 - (C) to any person(s), if it is authorised by a special resolution, whether or not those persons include the persons referred to in clause (A) or clause (B) above either for cash or for a consideration other than cash, if the price of such shares is determined by the valuation report of a registered valuer subject to such conditions as may be prescribed under the Act and the rules made thereunder.
- iii. The Article 67(3) be proposed to be inserted after the renumbered Article 67(2) as follows:

Nothing in this Article shall apply to the increase of the subscribed capital of the Company caused by the exercise of an option as a term attached to the Debentures issued or loan raised by the Company to convert such Debentures or loans into Shares in the Company or to subscribe for Shares of the Company:

Provided that the terms of issue of such Debentures or loan containing such an option have been approved before the issue of such Debentures or the raising of loan by a special resolution passed by the Company in a General Meeting.
- iv. The Article 67(4) is proposed to be inserted after the above inserted Article 67(3) as follows:

Notwithstanding anything contained in Article 67(4) hereof, where any debentures have been issued, or loan has been obtained from any Government by the Company, and if that Government considers it necessary in the public interest so to do, it may, by order, direct that such debentures or loans or any part thereof shall be converted into Shares in the Company on such terms and conditions as appear to the Government to be reasonable in the circumstances of the case even if terms of the issue of such debentures or the raising of such loans do not include a term for providing for an option for such conversion:

Provided that where the terms and conditions of such conversion are not acceptable to the company, it may, within sixty days from the date of communication of such order, appeal to the National Company Law Tribunal which shall after hearing the Company and the Government pass such order as it deems fit.

A further issue of shares may be made in any manner whatsoever as the Board may determine including by way of preferential offer or private placement, subject to and in accordance with the Act and the rules made thereunder.
- v. After Article 172 following articles are proposed to be added:

Dividend how remitted

172 A

Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent. Payment in any way whatsoever shall be made at the risk of the person entitled to the money paid or to be paid. The Company will not be responsible for a payment which is lost or delayed. The Company will be deemed to having made a payment and received a good discharge for it if a payment using any of the foregoing permissible means is made.

172 B

Any one of two or more joint holders of a Share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such Share.

vi. After Article 196 following articles are proposed to be added:

GENERAL POWER

196A

Wherever in the Act, it has been provided that the Company shall have any right, privilege or authority or that the Company could carry out any transaction only if the Company is so authorized by its articles, then and in that case this Article authorizes and empowers the Company to have such rights, privileges or authorities and to carry such transactions as have been permitted by the Act, without there being any specific Article in that behalf herein provided.

196B

Further, where the Act or rules empowers the Board to exercise any powers for and on behalf of the Company, the Board shall be entitled to exercise the same, irrespective of whether the same is contained in this Articles or not.

196C

The provisions of the Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles. Any provision contained in these Articles shall, to the extent to which it is repugnant to the provisions of the Act, become or be void, and the same shall without affecting other provisions contained in these Articles.

196D

The provisions of these Articles must be read in conjunction with the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 as amended, and other rules, regulations, circulars, notifications, orders or directions issued by Securities and Exchange Board of India from time to time (each to the extent applicable).

V. Articles 161, 184, 187, 189 are proposed to be omitted.

For National Stock Exchange of India Limited

S. Madhavan

Authorised Signatory

Date : November 10, 2016

Place : Mumbai

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in